



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24—जुलाई 30, 2004 (श्रावण 2, 1926)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24—JULY 30, 2004 (SRAVANA 2, 1926)

इस भाग में चित्त सुख सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग : - खण्ड :

PART I - SECTION

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अप्रत्यक्षों के नियुक्तियों व हट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएँ।

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Transfers, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2004

सं. 360, दिनांक 2 जुलाई 2004 - राष्ट्रपति, सहायक सहायक निदेशक विभाग के को-ऑर्डिनेटिंग सेवा संवर्ग के सहायक श्री निरंजन राकेश मिश्रा का नाम वर्ष 2002 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (प्रतीक्षा कोट) में सम्मिलित किए जाने पर उन्हें 24 जुलाई 2004 के पूर्वोक्त से अगले आदेश जारी होने तक 6560-10,350/10-10 के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में इस समय तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत निरन्तरिक सहायकों का नाम वर्ष 2001 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (प्रतीक्षा कोट) की कबज सूची में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 24 जुलाई 2004 के पूर्वोक्त से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :-

श्री अमर कुमार शर्मा

श्री मधुसूदन काला

श्री मनीष रणु शर्मा

वा. सरस्वती

अवर सचिव

I-164 GI/2004

(957)

सेना साखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

स. 360, दिनांक 2 जुलाई 2004 - राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री परन वन्द को दिनांक 20.10.2003 से 30.03.2004 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवानिवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक राजभाषा ग्रेड-1 (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 7500-250-12000 में नियुक्त करते हैं।

2 नियुक्ति अधिकारी द्वारा पद का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।

यदि नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों से अगले नियुक्ति तदर्थ के आधार पर नियुक्ति बिना किसी पूर्ण सूचना के अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगी।

राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री परन वन्द को दिनांक 01.04.2004 से 30.03.2004 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या

अधिकारी के सेवानिवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक राजभाषा ग्रेड-1 (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में चेतनमान रु. 7500-250-12000 में नियुक्त करते हैं।

2. नियुक्ति अधिकारी द्वारा पद का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

संतोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा)

सं. 361, दिनांक 6 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति देते हैं :--

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन
लै. बनाया जाता है

लै. जयन्त देशमुख (टीए-42578 इंजीनियर्स), 05 मई 2003

लै. तरुण चोपड़ा (टीए-42579 इंजीनियर्स), 10 मई 2003

लै. आलोक कुमार राय (टीए-42581 इंजीनियर्स), 22 सितम्बर 2003

लै. योगेश चन्द्रा (टीए-42575 ए एस सी (टीए)), 26 अगस्त 2003

एम एल शर्मा
अवर सचिव

सं. 362, दिनांक 5 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां, नामों के आगे दी गई तारीखों से करते हैं :--[नौसेना अनुदेश 15/69 देखें।]

भारतीय नौसेना
स्थायी कांडर

मास्टर चीफ पेटी अफसर प्रथम श्रेणी के रैंक में

नाम, निजी सं., रैंक, तारीख

सतपाल (सं. 097929टी एमसीपीओ 1), 01 अगस्त 2003

मानचन्द (सं. 103109आर एमसीपीओ 1), 01 मई 2003

रतन सिंह (सं. 103784जेड एमसीपीओ 1), 01 मई 2003

कं के विजय कुमार (सं. 104126ए एमसीपीओ 1), 01 अक्टूबर 2003

आलम सिंह चौहान (सं. 105244टी एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

महोम्मद सदाकत (सं. 105333डब्ल्यू एमसीपीओ 1), 01 अक्टूबर 2003

बल्लब बिस्वाल (सं. 105771आर एमसीपीओ 1), 01 जून 2003

ज्ञान चन्द (सं. 105808 जेड एमसीपीओ 1), 01 जून 2003

एस सबासटीन (सं. 107121एच एमसीपीओ 1), 01 अक्टूबर 2003

रमाकांत सिंह (सं. 107160वाई एमसीपीओ 1), 01 अगस्त 2003

रामजी भाऊ (सं. 107190आर एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

इन्दर सिंह राठौर (सं. 108142बी एमसीपीओ 1), 01 अक्टूबर 2003

लालचन्द सैनी (सं. 140757बी एमसीपीओ 1), 01 अगस्त 2003

कुलदीप सिंह नेगी (सं. 140973डब्ल्यू एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

काला सिंह (सं. 141148टी एमसीपीओ 1), 01 दिसम्बर 2003

शिबाशंकर नायक (सं. 141233के एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

जबार खान (सं. 141827एच एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

रमाकांत पाण्डे (सं. 200959एन एमसीपीओ 1), 01 मई 2003

अनिल कुमार (सं. 202676बी एमसीपीओ 1), 01 सितम्बर 2003

बिरेन्द्र कुमार राय (सं. 203558एच एमसीपीओ 1), 01 दिसम्बर 2003

नरेन्द्र सिंह (सं. 203764ए एमसीपीओ 1), 01 अक्टूबर 2003

कुलदीप सिंह वर्मा (सं. 203981डब्ल्यू एमसीपीओ 1), 01 सितम्बर 2003

अब्दुल वाहिब (सं. 204043के एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

निजामुद्दीन (सं. 204101टी एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

पी मुरली मोहनन (सं. 204236जेड एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

कोशल कुमार किरण (सं. 204253एन एमसीपीओ 1), 01 अक्टूबर 2003

गुमान सिंह (सं. 204308एन एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

जगमोहन सिंह (सं. 204316एफ एमसीपीओ 1), 01 नवम्बर 2003

रामपाल खजुरिया (सं. 108418एफ एमसीपीओ एमए 1), 01 अप्रैल 2003

ओमप्रकाश (सं. 142270टी एमसीपीओ एमए 1), 01 अप्रैल 2003

भगवत सिंह यादव (सं. 142598एन एमसीपीओ एमए 1), 01 अप्रैल 2003

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (सं. 142743टी एमसीपीओ एमए 1), 01 अप्रैल 2003

काशी नाथ यादव (सं. 143086वाई एमसीपीओ एमए 1), 01 अप्रैल 2003

राज नारायण सिंह (सं. 107637एफ एमसीपीओ आर टेक 1), 01 नवम्बर 2003

अजीत सिंह (सं. 201597ए एमसीपीओ आर टेल 1), 01 अप्रैल 2003

जगदीश प्रसाद (सं. 202051एच एमसीपीओ आर टेल 1), 01 अप्रैल 2003

उदय नारायण पाण्डे [सं. 140909जेड एमसीए (एएच 1)], 01 अप्रैल 2003

विजय शंकर सिंह [सं. 107628के एमसीए (एसई 1)], 01 सितम्बर 2003

जगपाल सिंह [सं. 107785टी एमसीए (एसई 1)], 01 सितम्बर 2003

कुलदीप सिंह [सं. 141297एफ एमसीए (एमईटी 1)], 01 अक्टूबर 2003

राजकुमार सिंह (सं. 106508आर एमएससीपीओ 1), 01 अप्रैल 2003

महेन्द्र सिंह खयालिया (सं. 108849के एमएससीपीओ 1), 01 अप्रैल 2003

तिलक राज (सं. 108858एफ एमएससीपीओ 1), 01 अप्रैल 2003

अब्दुल कासिम खान (सं. 142925एफ एमएससीपीओ 1), 01 अप्रैल 2003

फहम उल्ला खान (सं. 142965वाई एमएससीपीओ 1), 01 मई 2003

धर्म प्रकाश (सं. 143461जेड एमएससीपीओ 1), 01 अप्रैल 2003

सुरेश सिंह (सं. 107814एच एमसीपीओ डब्ल्यू टी आर 1), 01 अप्रैल 2003

राम खिलाड़ी शर्मा (सं. 108361ए एमसीपीओ डब्ल्यू टी आर 1), 01 अप्रैल 2003

राम बिहारी पाण्डे (सं. 109325टी एमसीपीओ डब्ल्यू टी आर 1), 01 सितम्बर 2003

श्री कृष्ण (सं. 141086ए एमसीपीओ डब्ल्यू टी आर 1), 01 अप्रैल 2003

रामायण सिंह (सं. 141178के एमसीपीओ डब्ल्यू टी आर 1), 01 अप्रैल 2003

रमेश चन्द यादव (सं. 141561एफ एमसीपीओ डब्ल्यू टी आर 1), 01 अप्रैल 2003

करतार सिंह (सं. 143462ए एमसीपीओ डब्ल्यू टी आर 1), 01 अप्रैल 2003

नारायण चन्द्रा (सं. 106307एच एमसीपीओ (एसई 1), 01 अक्टूबर 2003

चिंइया करुणानिधि (सं. 140256आर एमसीपीओ सीके(एस 1), 01 मई 2003

लक्ष्मण जी गिरी (सं. 105854बी एमसीपीओ एसटीडी 1), 01 अप्रैल 2003

मुनिश्चर (सं. 105982डब्ल्यू एमसीपीओ एसटीडी 1), 01 अगस्त 2003

बिरेन्द्र सिंह (सं. 105984जेड एमसीपीओ एसटीडी 1), 01 नवम्बर 2003

विजय कुमार (सं. 055881बी एमसीपीओ टीओपी 1), 01 अप्रैल 2003

कुरुपासरे चाको (सं. 055897आर एमसीपीओ टीओपी 1), 01 अप्रैल 2003

सोकारा कारूपय्या (सं. 055939के एमसीपीओ टीओपी 1), 01 अप्रैल 2003

जोशवा ज्ञानदास (सं. 188029आर एमसीपीओ एमयुएस 1), 01 अप्रैल 2003

भानुप्रताप सिंह (सं. 141618के एमसी एटी एआरएमएस 1), 01 अप्रैल 2003

जार्ज जोन (सं. 204085एफ एमसी एटी एआरएमएस 1), 01 नवम्बर 2003

बलवंत सिंह कौशल (सं. 204202वाई एमसी एटी एआरएमएस 1), 01 अक्टूबर 2003

सुरेन्द्र प्रसाद (सं. 106774डब्ल्यू एमसीपीओआर एसपीएल 1), 01 जुलाई 2003

सुरेश प्रसाद त्रिपाठी (सं. 107877ए एमसीपीओआर एसपीएल 1), 01 नवम्बर 2003

अवध नाथ राम (सं. 107880एच एमसीपीओआर एसपीएल 1), 01 अक्टूबर 2003

बिरेन्द्र पाल सिंह (सं. 107455टी एससी ईएलए 1), 01 अप्रैल 2003

चंद्रनजीत सिंह (सं. 110972के एससी ईएलए 1), 01 अप्रैल 2003

स्वप्न कुमार साहा (सं. 142080के एससी ईएलए 1), 01 अप्रैल 2003

अजीत सिंह (सं. 141253एफ एससी ईएलएआर 1), 01 अप्रैल 2003

नेत्र पाल सिंह (सं. 141458वाई एससी ईएलएआर 1), 01 अप्रैल 2003

जगदीश चन्द एस राणा (सं. 142267के एससी ईएलएआर 1), 01 दिसम्बर 2003

धीरेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 107453एन एमसीपीओ एएफ 1), 01 नवम्बर 2003

मलकीत सिंह (सं. 143175जेड एमसीपीओ एएफ 1), 01 अगस्त 2003

अशोक कुमार सिंह (सं. 203791आर एमसीपीओ एएफ 1), 01 अगस्त 2003

सुभाष सिंह सलारिया (सं. 141985डब्ल्यू एमसीपीओ एओएफ 1), 01 जून 2003

सनवत सिंह बीका (सं. 109481वाई एससी ईएलआर 1), 01 अगस्त 2003

- भुवनेश्वर झा (सं. 110107डब्ल्यू एससीईएलआर 1), 01 अप्रैल 2003
- सूबे सिंह (सं. 110292आर एससीईएलएआर 1), 01 अगस्त 2003
- बालसन सी (144167बी एससी ईएलएआर 1), 01 अगस्त 2003
- राम रूची शुक्ला (सं. 144530बी एससीईएलएआर 1), 01 अप्रैल 2003
- शम्भू शरम साहनी (सं. 146715डब्ल्यू एससी ईएलएआर 1), 01 जून 2003
- राम बाबू प्रसाद (सं. 105307के एससीएमई 1), 01 मई 2003
- मुनिर (सं. 107454आर (एससी एमई 1), 01 अप्रैल 2003)
- रोमेश कुमार (सं. 110236एन एससी एमई 1), 01 अप्रैल 2003
- अशोक कुमार सिंह (सं. 110480टी एससी एमई 1), 01 अप्रैल 2003
- शीतल सिंह पाल (सं. 200378एफ एससी एमई 1), 01 अप्रैल 2003
- राजपाल सिंह (सं. 201631बी एससी एमई 1), 01 अप्रैल 2003
- अलफजुल रहमान (सं. 201674ए एससी एमई 1), 01 अप्रैल 2003
- विलिंगला सी नायडु (सं. 202607वाई एससी एमई 1), 01 अप्रैल 2003
- अमर सिंह तोमर (सं. 187180के एससी ईआरए 1), 01 अप्रैल 2003
- रवि कुमार पी (सं. 187327डब्ल्यू एससी ईआरए 1), 01 अप्रैल 2003
- कैलाश चन्द (सं. 187333एच एससी ईआरए 1), 01 अप्रैल 2003
- के दिगम्बरेश्वर (सं. 187522एन एससी ईआरए 1), 01 अक्टूबर 2003
- एम श्रीधर (सं. 187524टी एससी ईआरए 1), 01 अगस्त 2003
- इमरतिया ज हुसैन इदरिस (सं. 187569डब्ल्यू एससी ईआरए 1), 01 नवम्बर 2003
- चपाला राजू (सं. 187572ए एससी ईआरए 1), 01 अगस्त 2003
- के विनायका मरूगन (सं. 187578आर एससी ईआरए 1), 01 अक्टूबर 2003
- जादव एन दत्त (सं. 191400ए एससी ईआरए 1), 01 अगस्त 2003
- रविन्दा डी थोमल (सं. 191504टी एससी ईआरए 1), 01 अगस्त 2003
- भागवान सिंह (सं. 191746एन एससी ईआरए 1), 01 अप्रैल 2003
- लाकेश कुमार (191772वाई एससी ईआरए 1), 01 मई 2003
- प्रदीप कुमार सिंह (सं. 191777एच एससी ईआरए 1), 01 अक्टूबर 2003
- कदम अब्बासाहिब ज़ानू (सं. 108280टी एससी एमईसीएच 1), 01 अगस्त 2003
- अवतार सिंह (सं. 187379एन एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- दिलिप के जी भुजवानी (सं. 187442एफ एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- डी मरूगन (सं. 187553डब्ल्यू एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- सन्नी एम ए (सं. 187559वाई एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- राजेन्द्र प्रसाद (सं. 187561ए एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- दुख बंधु नायक (191184के एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- अमृत कुमार राय (सं. 191290ए एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- अनिल कुमार श्रीवास्तव (सं. 191324बी एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- बरद बालकृष्णा नामदेव (सं. 192324बी एससी ईएपी 1), 01 अप्रैल 2003
- केसरी नन्दन सिंह (सं. 197154बी एससी ईएपी 1), 01 अक्टूबर 2003
- नरेश चन्द्र सिंह (सं. 109962आर एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- जेड अली (सं. 109963टी एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- बिरेन्द्र भौमिक (सं. 110483जेड एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- परमानन्द चौधरी (सं. 110764एन एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- लक्ष्मण सिंह (सं. 110902ए एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- महेन्द्र कुमार यादव (सं. 111079बी एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- कुशला नन्द ढिमरी (सं. 146185आर एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- भगिरथ सिंह जोधा (सं. 146766के एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- तेज सिंह चौहान (सं. 147011टी एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- अरवि कुमार नन्दी (सं. 147316के एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- पुशिल कुमार (सं. 147980डब्ल्यू एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- रजनीत सिंह (सं. 149089आर एससी एमईसीएच पी 1), 01 अप्रैल 2003
- सुन्दर पाल सिंह (सं. 187652एच एससी ईआरए 1), 01 अप्रैल 2003
- सूर्यभान सिंह (सं. 191490एफ एससी ईआरए 1), 01 अप्रैल 2003
- लट्टू राम (सं. 191646एफ एससी ईआरए 1), 01 अप्रैल 2003
- राम बिलास सिंह यादव (सं. 191868आर एससी ईआरए 1), 01 अक्टूबर 2003
- बिनोद कुमार (सं. 192014वाई एससी ईआरए 1), 01 नवम्बर 2003
- अनन्त प्रकाश मिश्रा (सं. 144953आर एससी एमईसीएच आर 1), 01 सितम्बर 2004

शिवनाथ सिंह (सं. 146220डब्ल्यू एससी एमईसीएच आर 1), 01 अप्रैल 2003

रोशन लाल (सं. 187593जेड एमसी एच 1), 01 अप्रैल 2003

एस कुमारस्वामी (सं. 187596एफ एमसी एच 1), 01 अक्टूबर 2003

पाटिल निवरुति कृष्ण (सं. 187600आर एमसी एच 1), 01 जून 2003

गोलुगुगे एडी रेड्डी (सं. 187641एच एमसी एच 1), 01 अप्रैल 2003

बी श्रीनिवास राव (सं. 187642के एमसी एच 1), 01 अप्रैल 2003

चन्द्रमणी के डी [सं. 187535टी एमसी एच (डब्ल्यू) 1], 01 अप्रैल 2003

भजन कुमार देव [सं. 187605ए एमसी एच (डब्ल्यू) 1], 01 अप्रैल 2003

पवार अशोक नामदेव [सं. 107923एफ एमसी एमईसीएच (ए एल) 1], 01 अप्रैल 2003

सवालिया सिंह [सं. 110662एफ एमसी एमईसीएच (ए एल) 1], 01 अप्रैल 2003

सुबोध चन्द्रा पाल [सं. 112056जेड एमसी एमईसीएच (ए एल) 1], 01 अप्रैल 2003

वी के जूड (सं. 187653के एमसी ईएएआर 1), 01 अप्रैल 2003

प्रताप नारायण तिवारी (सं. 191470के एमसी ईएएआर 1), 01 अप्रैल 2003

कदम विशम्भर (सं. 191628डब्ल्यू एमसी ईएएआर 1), 01 अप्रैल 2003

एम डी सिराजुद्दीन अन्सारी (सं. 191669एन एमसी ईएएआर 1), 01 अप्रैल 2003

आर एन एस कुशवाहा (सं. 191829ए एमसी ईएएआर 1), 01 अप्रैल 2003

तौफिक अली (सं. 192237बी एमसी ईएएआर 1), 01 सितम्बर 2003

मास्टर चीफ पेटी अफसर द्वितीय श्रेणी के रैंक में

नाम, निजी सं., रैंक और तारीख

अयुब अली गाजी (सं. 110003एच), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

आजाद कुमार (सं. 111632के), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

यिदला दीमूदू (111835वाई), एमसीपीओ 2, 01 अगस्त 2003

बंसीधर (111933डब्ल्यू), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

राजेन्द्र कुमार (112173आर), एमसीपीओ 2, 01 अक्टूबर 2003

मुन्नाराम (112466एफ), एमसीपीओ 2, 01 अक्टूबर 2003

कुलदीप चन्द कटोच (112555एच), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

राजेन्द्र सिंह (112755एन), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

सुरेश कुमार (112911टी), एमसीपीओ 2, 01 अक्टूबर 2003

दिलबाग सिंह (113054टी), एमसीपीओ 2, 01 अक्टूबर 2003

रमेश कुमार (113325एच), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

एस तिरुपति (113429डब्ल्यू), एमसीपीओ 2, 01 अगस्त 2003

सुरेन्द्र मिह यादव (113468एच), एमसीपीओ 2, 01 मई 2003

सुनिल जीजाबा मोरे (113688एच), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

रेगी कुरियाकोस (114055टी), एमसीपीओ 2, 01 सितम्बर 2003

विशु नाग (148086के), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

महेश चन्द्रा (148977के), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

लक्ष्मण सिंह नेगी (149252के), एमसीपीओ 2, 01 सितम्बर 2003

पारसनाथ राय (149285के), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

ज्ञानदेव सिंह (149294एफ), एमसीपीओ 2, 01 मई 2003

पिताबास सासमल (149365टी), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

शेर बहादुर (149521वाय), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

के चन्द्रा कुशवाहा (149533जेड), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

देवकी नन्दन (149564डब्ल्यू), एमसीपीओ 2, 01 अक्टूबर 2003

रमेश चन्द्रा (149631वाय), एमसीपीओ 2, 01 अगस्त 2003

एम जे मानी (149776ए), एमसीपीओ 2, 01 मई 2003

चन्द्राबाली यादव (149801एच), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

विशाल सिंह (149880एन), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

चन्द्रशेखर (149929जेड), एमसीपीओ 2, 01 अगस्त 2003

केएम ब्रसाद मिश्रा (149934के), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

नरमन धनुके (150072ए), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

अरुण ढोबल (160409टी), एमसीपीओ 2, 01 नवम्बर 2003

रूप सिंह (160580एफ), एमसीपीओ 2, 01 जुलाई 2003

नन्द लाल (160614एच), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

सी बी संतोष कुमार (160687जेड), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

प्रमन्न कुमार कर (160994वाय), एमसीपीओ 2, 01 सितम्बर 2003

हर्ष मानी (161298एन), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

राजेश कु कुन्जापन (172609डब्ल्यू), एमसीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003

जीत सिंह (174025एन), एमसीपीओ 2, 09 मार्च 2003

भवर लाल 110877डब्ल्यू), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003

रमेश कुमार (111082के), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003

भारत सिंह (111602टी), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003

साहब सिंह (111960एफ), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 गुलेश्वर प्रसाद साह (146875एच), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 अरुण कुमार चौधरी (147306डब्ल्यू), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 पूरणमल यादव (147400ए), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 दीनानाथ प्रसाद (147700एच), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 उदय कुमार (147769आर), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 रविन्द्रा कुमार (147966एन), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 जयधराम (148528आर), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 राम डकवाल सिंह (148459एच), एमसीपीओएम ए 2, 01 अप्रैल 2003
 सीताराम दाम (110654एन), एमसीपीओआर टेक 2, 01 अप्रैल 2003
 राजपाल सिंह (111272टी), एमसीपीओआर टेक 2, 01 अप्रैल 2003
 महेश बाबू (111583जेड), एमसीपीओआर टेक 2, 01 अप्रैल 2003
 एश नाताराम सिंह (112190बी), एमसीपीओआर टेक 2, 01 अप्रैल 2003
 उदयवीर सिंह (112959ए), एमसीपीओआर टेक 2, 01 नवम्बर 2003
 प्रेमपाल (149573आर), एमसीपीओआर टेक 2, 01 नवम्बर 2003
 अनिल कुमार राय (111245एफ), एमसीपीओआर टेल 2, 01 अप्रैल 2003
 पी ओ बेनी (111927एफ), एमसीपीओआर टेल 2, 01 सितम्बर 2003
 संतोष कुमार (113372आर), एमसीपीओआर टेल 2, 01 मई 2003
 रामचन्द्र (113566एफ), एमसीपीओआर टेल 2, 01 अक्टूबर 2003
 मिथलेश झा (144369एफ), एमसीपीओआर टेल 2, 01 अप्रैल 2003
 गिदला रामामूर्ति (147384आर), एमसीपीओआर टेल 2, 01 अप्रैल 2003
 राजकिशोर झा (147549आर), एमसीपीओआर टेल 2, 01 अप्रैल 2003
 उमार्शंकर मिश्रा (148152के), एमसीपीओआर टेल 2, 01 जून 2003
 गोपीनाथ मिश्रा (148226बी), एमसीपीओआर टेल 2, 01 अप्रैल 2003
 अरुण कुमार मिश्रा (160758के), एमसीपीओआर टेल 2, 01 जुलाई 2003
 बिचित्रा कुमार पाण्डा (140875आर), एमसीए ए एच 2, 01 अप्रैल 2003
 सतबीर सिंह (111054वाय), एमसीए ए एच 2, 01 अप्रैल 2003
 राज कुमार (112774एफ), एमसीए ए एच 2, 01 अक्टूबर 2003
 बालकार सिंह (149673टी), एमसीए ए एच 2, 01 सितम्बर 2003

अवधेश कुमार सिंह (160369ए), एमसीए ए एच 2, 01 दिसम्बर 2003
 जयप्रकाश शर्मा (111126के), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 गोपीराम माचरा (111157एफ), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 मनोहर सिंह (111168एफ), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 संतोष कुमार (111302के), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 गणपति के सी (111483वाय), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 रामप्रताप बिपाठी (111687के), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 नन्दन सिंह रावत (111714वाय), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 रूरा राम यादव (147348एच), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 मोण कुमार (147484टी), एमएससीपीओ 2, 01 दिसम्बर 2003
 राकेश कुमार जोशी (147499ए), एमएससीपीओ 2, 01 अप्रैल 2003
 टोडकर श्यामराव जानाबा (112827ए), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 किशोर कुमार झा (112924वाय), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 रमेश नारायण शर्मा (112493आर), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 सितम्बर 2003
 धर्मपाल (149075एच), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 चंदन सिंह डांगी (149424ए), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 रविकांत पांडे (149511जेड), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 मुनिश्वर वर्मा (149816टी), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 कपिल देव (149836एन), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 धनश्याम दास (160221आर), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 महेन्द्र कुमार (160235वाय), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 श्रीनिवास महापात्रा (160629टी), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 दीपनारायण (161274एच), एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 2, 01 अप्रैल 2003
 ज्योति मालाकोन्डा राव (107323टी), एमसीपीओ सीके(ओ) 2, 01 अक्टूबर 2003
 राजेश्वर प्रसाद (104635एच), एमसीपीओ सीके(एस) 2, 01 अप्रैल 2003

- अहीबारन सिंह (104749टी), एमसीपीओ सीके(एस) 2, 01 अप्रैल 2003
- सुरेन्द्र पाल (105901के), एमसीपीओ सीके(एस) 2, 01 अप्रैल 2003
- देवनाथ राम (107247डब्ल्यू), एमसीपीओ सीके(एस) 2, 01 नवम्बर 2003
- सदानन्दन मालायिल (145217आर), एमसीपीओ एसटीडी 2, 01 नवम्बर 2003
- तेजवीर सिंह (145231वाय), एमसीपीओ एसटीडी 2, 01 अगस्त 2003
- धर्मराज बिल्सन (152766वाय), एमसीपीओ एसटीडी 2, 01 अप्रैल 2003
- के एम कुनि महोम्द (107753डब्ल्यू), एमसीपीओ टीओपी 2, 01 नवम्बर 2003
- ओ ए थोमस (107810जेड), एमसीपीओ टीओपी 2, 01 नवम्बर 2003
- वेनी मुथु (108013के), एमसीपीओ टीओपी 2, 01 नवम्बर 2003
- जे अप्पाचाय कृष्णन (152347डब्ल्यू), एमसीपीओ टीओपी 2, 01 अगस्त 2003
- इजराइल जोन (188038के), एमसीपीओ एमयूएस 2, 01 अप्रैल 2003
- वी गुरुसेमी (188170के), एमसीपीओ एमयूएस 2, 01 अप्रैल 2003
- नरेन्द्रनाथ के पी (188261टी), एमसीपीओ एमयूएस 2, 01 अप्रैल 2003
- प्रदीप कुमार (111365बी), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- रसपाल सिंह (141865वाय), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- चमनलाल (143505जेड), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- सतवीर सिंह (143610एन), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- बिजेन्द्र सिंह (143707एच), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- जगदेव सिंह (144314एन), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- अखिलेश्वर प्रसाद (144808के), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- बिक्रम सिंह चौहान (146628वाय), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- भारत सिंह (146758टी), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- चरन सिंह (146806ए), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- पूरन सिंह (146850ए), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- नरेन्द्र कुमार सिंह (146983बी), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- सुन्दर लाल (149139बी), एमसीएटीए आरएमएस 2, 01 अप्रैल 2003
- सतवीर सिंह (110858ए), एमसी पीओएसपीएल 2, 01 अप्रैल 2003
- कृष्णा कुमार सिंह (160503एफ), एमसीपीओएसपीएल 2, 01 जुलाई 2003
- वाय राम प्रसाद दत्तात्रेय (112790टी), एमसी ईएलएआर 2, 01 अप्रैल 2003
- अमिल कुमार (114602के), एमसी ईएलएआर 2, 01 अप्रैल 2003
- लालू सिंह (162720डब्ल्यू), एमसी ईएलएआर 2, 09 जुलाई 2003
- जेकब साम्यूल (163668जेड), एमसी ईएलएआर 2, 01 नवम्बर 2003
- महोम्द अकील (161174एफ), एमसीपीओ एफ 2, 01 अप्रैल 2003
- सी मैरीचामी (191985जेड), एमसीपीओ एफ 2, 01 अगस्त 2003
- दीनदयाल मोर्य (162664टी), एमसीपीओ एफ 2, 01 अगस्त 2003
- के किशोर चौधरी (162901एफ), एमसीपीओ एफ 2, 01 अप्रैल 2003
- सतवीर सिंह चौहान (164389एन), एमसीपीओ एफ 2, 01 नवम्बर 2003
- राजवीर (164149टी), एमसीपीओ एओफ 2, 01 जून 2003
- रमेश कुमार (113929एफ), एमसीईएलपी 2, 01 अप्रैल 2003
- प्रतिपाल (149675वाय), एमसीईएलपी 2, 01 अप्रैल 2003
- सुदीश कुमार (161393बी), एमसीईएलपी 2, 01 अप्रैल 2003
- एस आर सी शत्रुशला (161428एच), एमसीईएलपी 2, 01 अप्रैल 2003
- नरेन्द्र सिंह (161577वाय), एमसीईएलपी 2, 01 अप्रैल 2003
- भजुरामा यादव (162351एफ), एमसीईएलपी 2, 01 अप्रैल 2003
- शेख एम सुबानी (163079के), एमसीईएलपी 2, 01 अप्रैल 2003
- जयप्रकाश (113707ए), एमसीईएलआर 2, 01 अप्रैल 2003
- नरेश कुमार (113709एफ), एमसीईएलआर 2, 01 अप्रैल 2003
- राजेन्द्र सिंह (114044टी), एमसीईएलआर 2, 01 अप्रैल 2003
- शिव नरेश (161624बी), एमसीईएलआर 2, 01 जून 2003
- ओम प्रकाश सिंह यादव (162195ए), एमसीईएलआर 2, 01 अप्रैल 2003
- शशिधर मिश्रा (162449बी), एमसीईएलआर 2, 01 अगस्त 2003
- विश्वनाथन टी ए (162515बी), एमसीईएलआर 2, 01 अगस्त 2003
- सुभाष चन्द्रा भट (111936ए), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003
- देशराज (112265जेड), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003
- रामयश गर्ग (112544एच), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003

- ईश्वर एन दाखोर (113449आर), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003
- इकबाल (146203एफ), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003
- विक्रम सिंह रावत (148708जेड), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003
- राजेन्द्र सिंह (149008एफ), एमसीएमई 2, 01 मई 2003
- मीहिर कुमार डे (160049जेड), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003
- कालजी यादव (161531टी), एमसीएमई 2, 01 अप्रैल 2003
- जंगबहादुर सिंह (163072डब्ल्यू), एमसीएमई 2, 01 अक्टूबर 2003
- दल सिंह (163221एच), एमसीएमई 2, 01 मई 2003
- फिलिप करियाकोस (166472वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अक्टूबर 2003
- उमेश सी विश्वकर्मा (166652एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- राकेश कुमार यादव (167057ए), एमसीआईआरए 2, 01 नवम्बर 2003
- संतोष बहादुर सिंह (167063आर), एमसीआईआरए 2, 01 अगस्त 2003
- यशबीर सिंह (167401एच), एमसीआईआरए 2, 01 नवम्बर 2003
- आरत मलिक (167651ए), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- दिवाकर प्रधान (167713टी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- विश्व कुमार चौहान (167804जेड), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- अमोया कुमार होता (193081वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- सतनाम सिंह घोत्रा (193085एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- सुनिल कुमार तिवारी (193098के), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- बिजेन्द्र सिंह नेगी (193117बी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- संजीव कुमार (193157डब्ल्यू), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- राजेश कुमार शर्मा (193159जेड), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- दीपक बाफिला (193161बी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- प्रभुनाथ राय (193162एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- बिनय कुमार (193169वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- सुरेन्द्र प्रसाद (193170जेड), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- सुरेन्द्र सिंह चौहान (193178टी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- देवराज (193183बी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- सुनिल प्रकाश आर्य (193184एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- उमेश कुमार शर्मा (193202वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- देबाशीशा महापात्रा (193216बी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- समीर कुमार मिश्रा (193217एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- काटकर एस भगवान (193224वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- काम्बले किशोर बापू (193227बी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- शशिकांत आर खोलम (193229एच), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- पंकज शर्मा (193236जेड), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- शमीम खान (193240एच), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- ओम प्रकाश शोरान (193246वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- राजकुमार (193246बी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- अजय कुमार (193251एच), एमसीआईआरए 2, 14 अक्टूबर 2003
- सुभाष चन्द्र (193259ए), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- अशोका जौली (193260बी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- सुनिल कुमार सिंह (193261एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- मनीष रैना (193263के), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- राजकुमार (193267डब्ल्यू), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- प्रवीण कुमार सकलानी (193268वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- जगद्वाने जी जयसिंह (193270ए), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- पी ए थोमस (193272एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- नाईक मनोज सूर्यकांत (193274के), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- कदम एस व्यंकट राव (193278डब्ल्यू), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- आजादी साह (193288टी), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- प्रीतम सिंह (193289डब्ल्यू), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- शेख एस चांदभाई (193290वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- सुभाष चन्द्र (193291जेड), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- देओतारसे आर रामदास (193292ए), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- विजय सिंह (193297एन), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- शशि शेखर दुबे (193300डब्ल्यू), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- भगवान बिस्वाल (193309आर), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- रविन्द्र कुमार (193312वाय), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- प्रीतम सिंह (193313जेड), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- अरविन्द सिंह रावत (193316एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- शर्मा जे लीलाधर (193322डब्ल्यू), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
- अनिल कुमार (193327एफ), एमसीआईआरए 2, 01 अप्रैल 2003

अजीत कुमार चौबे (193329के), एमसीईआरए 2, 01 मई 2003
 मनोज कुमार (193339एच), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 तपन कुमार साह (193346जेड), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 निर्मलजीत सिंह (193348बी), एमसीईआरए 2, 01 अगस्त 2003
 बिक्रम सिंह (193352एन), एमसीईआरए 2, 01 नवम्बर 2003
 दीपक बांगाले (193355डब्ल्यू), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 नरोत्तम कुमार शर्मा (193356वाय), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 सांगले आर विश्वनाथ (193361एच), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003

मनोज कुमार तिवारी (193363एन), एमसीईआरए 2, 01 अक्टूबर 2003

नरेन्द्र सिंह (193364आर), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 बेधा रवि प्रकाश (193366डब्ल्यू), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 संजय कुमार बी अडसुल (193374एन), एमसीईआरए 2, 01 अक्टूबर 2003

पाटिल प्रताप श्यामराव (193375आर), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003

कदम बी पाबाती (193377डब्ल्यू), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 देवेन्द्र सिंह यादव (193378वाय), एमसीईआरए 2, 01 अप्रैल 2003
 रामश्रेय यादव (193382एफ), एमसीईआरए 2, 01 सितम्बर 2003
 विनित के जोस (193390जेड), एमसीईआरए 2, 01 नवम्बर 2003
 संतोष कुमार (109681ए), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 ज्ञान चन्द प्रसाद (111099जेड), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003

जाईमन चाको (112341वाय), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 नरसी राम शर्मा (112343ए), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 उज्जवल कुमार साहा (112463जेड), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003

काना राम खेदर (113576बी), एमसी एमइसीएच 2, 01 नवम्बर 2003

कृष्णा पाल (146109टी), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 राजेन्द्र सिंह राठौड़ी (148147जेड), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003

बिजेन्द्र सिंह (148270बी), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 बलदेव राज (148856के), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 नित्यानन्द (148887एफ), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 नारायण दत्त पाण्डे (149423जेड), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003

सालिग्राम (149873वाय), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003
 शंकर सिंह रावत (160593के), एमसी एमइसीएच 2, 01 अप्रैल 2003

अरुण कुमार सिंह (161034एन), एमसी एमइसीएच 2, 01 जून 2003

शांतनु अधिकारी (161676वाय), एमसी एमइसीएच 2, 01 नवम्बर 2003

शेखर आनन्द (162258डब्ल्यू), एमसी एमइसीएच 2, 01 जून 2003
 सुरेश दत्ता (168145जेड), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003

नवीन कुमार (168424एच), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003
 प्रशांत कुमार टी (169157जेड), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003

हेमन्त सेलोकर (171372एच), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003
 रणधीर सिंह (171415एफ), एमसी इएपी 2, 01 अक्टूबर 2003

सुब्रामण्या नायका (171883डब्ल्यू), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003
 अजीत कुमार (172695आर), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003

किरण कुमार गिरी (197547वाय), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003
 प्रमोद कुमार (197564के), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003

एम डी इशितयाक (197593ए), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003
 सुनिल कुमार ठाका (197604ए), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003

सोमनाथ ढाल (197605बी), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003
 अखिलेश सिंह (197639एफ), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003

भूपेन्द्र सिंह (197647जेड), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003
 विजय पाल सिंह (197663के), एमसी इएपी 2, 01 अप्रैल 2003

अशोक कुमार (114142आर), एमसी एमइसीएच पी 2, 01 अप्रैल 2003

सतवीर सिंह (161075एफ), एमसी एमइसीएच पी 2, 01 अप्रैल 2003

अजीत सिंह (161364एन), एमसी एमइसीएच पी 2, 01 अप्रैल 2003

अब्दुल गफ्फार (162203डब्ल्यू), एमसी एमइसीएच पी 2, 01 नवम्बर 2003

मनोरंजन कुआनार (197374बी), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

चिरंजी लाल (197438जेड), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

बजरंग बहादुर सिंह (197449जेड), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

तुषार सिंह (197464एच), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003
 पी जे जान्सन (197472ए), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

राम विजय कुमार (197487के), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197488एन), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197489आर), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197498के), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

अनिल कुमार (197500आर), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197504जेड), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197506बी), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार एम (197518एफ), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197522आर), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197525वाय), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197529एफ), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197542के), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197543एन), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197546डब्ल्यू), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197556टी), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197557डब्ल्यू), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197559जेड), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197573एफ), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार (197578टी), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

विजय कुमार त्रिपाठी (197607एच), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

रमेश चन्द्र (197614जेड), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

गुभाजित सिन्हा (197620एन), एमसी इएआर 2, 01 सितम्बर 2003

विजय सिंह (197622टी), एमसी इएआर 2, 01 अक्टूबर 2003

मनोज कुमार आर (197626ए), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

संजीव कुमार सिंह (197631एन), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

अमर गवसेना (197635वाय), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

मनोज भोमिका (197636जेड), एमसी इएआर 2, 01 नवम्बर 2003

सुमनजीत बर्जीआर सिंह (197640एच), एमसी इएआर 2, 01 अप्रैल 2003

मनोज कुमार बिस्वाल (197676आर), एमसी इएआर 2, 01 नवम्बर 2003

जसबीर सिंह सैनी (193186के), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

दिलदार सिंह (193188आर), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

कर्मसिंह (193191वाय), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

अलकेश कुमार त्यागी (193200टी), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

रमेश कुमार (193201डब्ल्यू), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

श्रीधर मोहन्ती (193232आर), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

सरोज कुमार त्रिपाठी (193235वाय), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

राकेश सिंह पठानिया (193255टी), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

राजेश कुमार जी एस (193275एन), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 नवम्बर 2003

के पी निकिल (193276आर), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

पैला श्याम सुन्दर (193284एच), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

वाघ हितेन्द्रा मोती राम (193299टी), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

संजीव कुमार राणा (193301वाय), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

अशीम दी चौधरी (193308एन), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 मई 2003

बिरेन्द्र कुमार शुक्ला (193317एच), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

नवीन बक्शी (193336ए), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 नवम्बर 2003

भुटारे आर सूर्यभान (193372एच), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 अप्रैल 2003

मुकेश कुमार (193421डब्ल्यू), एमसी एसडब्ल्यूए 2, 01 नवम्बर 2003

अनिल कुमार (193050ए), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

अरुण कुमार सिंह (193060जेड), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

जोर्ज मैथ्यू (193072ए), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

सूरज भान वर्मा (193088एन), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

गौतम बासू (193091डब्ल्यू), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

केनिकारा प्रसाद (193108एच), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

गीतम सिंह सौलंकी (193118एफ), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

राजेश के गोविन्दन (193135डब्ल्यू), एमसी एए 2, 01 अप्रैल 2003

टी एम बैनी (193151एफ), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 संतोष सिंह नेगी (193172बी), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 मंजले रफल पोल (193206एफ), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 ई संतोष पोल (193239एफ), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 अशोक राणा (193264एन), एमसी ए 2, 01 अक्टूबर 2003
 जोश टीडुश (193271बी), एमसी ए 2, 01 नवम्बर 2003
 पी एन संतोष (193294एफ), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 धर्यशील यादव (193315बी), एमसी ए 2, 01 नवम्बर 2003
 अरुण कुमार त्रिवेदी (193318के), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 ओमवीर (193210आर), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 धर्मवीर सिंह (160639आर), एमसी ए 2, 01 अप्रैल 2003
 ज्योति स्वरूप अवस्थी (163677डब्ल्यू), एमसी एएम 2, 01 अप्रैल 2003
 शुशांत बिस्वास (192856के), एमसी ए (डब्ल्यू) 2, 01 अप्रैल 2003
 अशोक कुमार (192863ए), एमसी ए (डब्ल्यू) 2, 01 अप्रैल 2003
 सुरदीप कुमार त्रिवेदी (193078आर), एमसी ए (डब्ल्यू) 2, 01 नवम्बर 2003
 रामनिवास (163577टी), एमसी एएम (डब्ल्यू) 2, 01 अप्रैल 2003
 बालागा जीवारलम (164098ए), एमसी एएम (डब्ल्यू) 2, 01 अप्रैल 2003
 के सुरेश चन्द्रन (197331एफ), एमसी ईए 2, 01 अप्रैल 2003
 परमजीत कुमार साह (197371वाय), एमसी ईए 2, 01 अप्रैल 2003
 प्रदीप कुमार ठाकुर (197389एन), एमसी ईए 2, 01 अप्रैल 2003
 सुरेन्द्र सिंह (197393वाय), एमसी ईए 2, 01 अप्रैल 2003
 के सुजाई बाबू (197409एच), एमसी ईए 2, 01 अप्रैल 2003
 किशोर कुमार आसवाल (197418बी), एमसी ईए 2, 01 नवम्बर 2003
 अनिल कुमार सारडा (197424टी), एमसी ईए 2, 01 अप्रैल 2003
 संजीव झा (197446टी), एमसी ईए 2, 01 अप्रैल 2003
 विपिन राज पुनिया (197477एन), एमसी ईए 2, 01 दिसम्बर 2003
 एस प्रसाद मिश्रा (163876वाय), एमसी एमईसीएच(एल) 2, 01 अप्रैल 2003
 बिजेन्द्र कुमार (163927एन), एमसी एमईसीएच(एल) 2, 01 अप्रैल 2003
 निरंजन कुमार शर्मा (164000बी), एमसी एमईसीएच(एल) 2, 01 अप्रैल 2003

वायु कुमार गुप्ता (197370डब्ल्यू), एमसी ईएएआर 2, 01 अप्रैल 2003
 जी बालामुरुगन (197380टी), एमसी ईएएआर 2, 01 अप्रैल 2003
 प्रवीन कुमार (197400एन), एमसी ईएएआर 2, 01 अप्रैल 2003
 प्रेम आनन्द (197457टी), एमसी ईएएआर 2, 01 अप्रैल 2003
 सुशिल कुमार (197459वाय), एमसी ईएएआर 2, 01 अक्टूबर 2003
 प्रमोद कुमार (197467के), एमसी ईएएआर 2, 01 नवम्बर 2003
 विरेन्द्र प्रताप (197478आर), एमसी ईएएआर 2, 01 नवम्बर 2003
 असतिक कोनार्ड (163254एच), एमसी एमईसीएच (एआर) 2, 01 सितम्बर 2003
 शशी पोल (164125एन), एमसी एमईसीएच (एआर) 2, 01 अप्रैल 2003
 पवित्रन कुनियिल (164835ए), एमसी एमईसीएच (एआर) 2, 01 अप्रैल 2003

जी एस दीक्षास
 जवर साहित्य

सं. 363, दिनांक 7 जुलाई 2004--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ओ.एफ. 1401 दिनांक 15 जुलाई 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियों उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले. के रैंक में परखाधीन सीधी भर्ती योजना
 नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म और कमीशन की तिथि
 हेन्डे विजय राघव (70470-एच), स्थायी, 07 जनवरी 2002
 किशोर बृज (70472-एन), स्थायी, 07 जनवरी 2002
 दास बिस्वारूप (70473-आर), स्थायी, 07 जनवरी 2002

कुमार गोपी
 कमांडर

संयुक्त निदेशक जनशक्ति (आर एंड आर)
 रक्षा मंत्रालय-एकीकृत मू. (पी सेना)

वायु शाखा

सं. 364, दिनांक 7 जुलाई 2004--राष्ट्रपति भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मू/22258/पीओ 3(ए)474/डि.ओ.आई. ए./डी/(एयर-III) दिनांक 27 मार्च 1985 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसरों को अल्पकालीन सेवा कमीशन (अस्थाई) को समाप्त करने के बाद उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

विमानिक इंजिनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पी भट्ट (24145) दिनांक 27 मई 2002 से

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पंकज चावला (24427) दिनांक 26 नवम्बर 2002 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट राजेश चन्द्रा (24436) दिनांक 03 दिसम्बर 2002 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट राजेश पेंगेजाम (24438) दिनांक 09 दिसम्बर 2002 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पी वी पी राव (24838) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट विश्वजीत डे (24839) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट अरुण प्रभाकरन (24840) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के एन रमेश (24853) दिनांक 01 दिसम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट आयाज फियाज (24858) दिनांक 12 दिसम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट यु सत्यन (24855) दिनांक 10 दिसम्बर 2003 से।

भारतीय वायु सेना

विमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट वी डी घोरपाडे (23908) दिनांक 27 नवम्बर 2001 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एम पुरोहित (23914) दिनांक 18 दिसम्बर 2001 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पंकज शर्मा (24431) दिनांक 26 नवम्बर 2002 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट अनिल अग्रवाल (24432) दिनांक 26 नवम्बर 2002 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट प्रवीण शर्मा (24433) दिनांक 26 नवम्बर 2002 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एन संजीव (24694) दिनांक 26 मई 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के ए राजन (24697) दिनांक 26 मई 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एम गुडाड़ (24698) दिनांक 26 मई 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पी गुरविन्दर सिंह (24705) दिनांक 27 मई 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट रत्नाकर देशमुख (24843) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट रवि शंकर यादव (24844) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एस लाम्बा (24845) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट इन्द्रजीत सिंह सहदेव (25846) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट रजनीष गौतम (24842) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट गुरुशान्त जरकी (24851) दिनांक 24 नवम्बर 2003 से।

राष्ट्रपति भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/22258/पी ओ 3(ए)/474/डीओआईमु/डी(एयर-III) दिनांक 27 मार्च 1985 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया है, की पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पूर्व दिनांक (Ante-date) प्रदान की जाती है :--

भारतीय वायु सेना

विमानिक इंजीनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पी भट्ट (24143) दिनांक 26 मई 1995 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पंकज चावला (24427) दिनांक 22 नवम्बर 1995 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट राजेश चन्द्रा (24436) दिनांक 22 नवम्बर 1995 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट राजेश पेंगेजामा (24438) दिनांक 22 नवम्बर 1995 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पी वी पी राव (24838) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट विश्वजीत डे (24839) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट अरुण प्रभाकरन (24840) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के एन रमेश (24853) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट अयाज फियाज (24858) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट यू सतयन (24855) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

भारतीय वायु सेना

विमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट वी डी घोरपाडे (23908) दिनांक 26 नवम्बर 1994 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एम पुरोहित (23914) दिनांक 26 नवम्बर 1994 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पंकज शर्मा (24431) दिनांक 22 नवम्बर 1995 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट अनील अग्रवाल (24432) दिनांक 22 नवम्बर 1995 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट प्रवीण शर्मा (24433) दिनांक 22 नवम्बर 1995 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एन सजीव (24694) दिनांक 23 मई 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पी आर गुप्ता (24696) दिनांक 23 मई 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के ए राजन (24697) दिनांक 23 मई 1996 से।
 फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एम गुडाड़ (24698) दिनांक 23 मई 1996 से।
 फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट पी गुरबिन्दर सिंह (24705) दिनांक 23 मई 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट रतनाकर देशमुख (24843) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट रवि शंकर यादव (24844) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट एस लाम्बा (24845) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट इन्द्रजीत सिंह सहदेव (25846) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट रजनीष गोतम (24842) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट गुरुशान्त फरकी (24851) दिनांक 22 नवम्बर 1996 से।

संजीव श्रीवास्तव
 स्क्वाड्रन लीडर
 डीडीपीओ 3(डी)

थल सेना विभाग

सं. 365, दिनांक 1 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं। पद और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है :--

नियमित सेना
 रक्षा तथा सुरक्षा कोर
 सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर हरका बहादुर पुन (जेसी-129314वाई) पहले 58 गोरखा राईफल्स, 03 अक्टूबर 2001

सूबेदार मेजर चरणजीत सिंह (जेसी-174596पी) पहले बीईजी (के), 13 अक्टूबर 2002

सूबेदार मेजर बैश रोपन ओझा (जेसी-181280एल) पहले सिगनल्स, 02 जनवरी 2003

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार राम सिंह गुरंग (जेसी-160847एच) पहले मैकनाइज़ इन्फैन्ट्री, 05 अक्टूबर 2001

सूबेदार कशमीर सिंह (जेसी-217948एक्स) पहले ब्रिगेड आफ द गार्ड, 03 जनवरी 2002

सूबेदार सुदामा सिंह (जेसी-205042ए) पहले पैरा रेजीमेन्ट, 02 जनवरी 2003

सूबेदार तारा दत्त कंडपाल (जेसी-235977पी) पहले आर्मड कोर, 02 जनवरी 2003

सूबेदार नेता जवाहर सिंह (जेसी-212915एच) पहले गढ़वाल राइफल्स, 02 जनवरी 2003

सूबेदार जै प्रकाश नैथानी (जेसी-212919वाई) पहले गढ़वाल राइफल्स, 02 जनवरी 2003

सूबेदार जगीर सिंह (जेसी-193243के) पहले ए एस सी (सप्लाय), 03 जनवरी 2003

सूबेदार सोनम दावा (जेसी-221079एन) पहले लद्दाख स्काउट्स, 03 जनवरी 2003

सूबेदार आर आयानर (जेसी-170521ए) पहले बी ई जी (आर), 07 जनवरी 2003

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार जीवन कुमार (जेसी-419108ए) पहले मैकनाइज़ इन्फैन्ट्री, 02 जुलाई 2001

नायब सूबेदार समन सिंह (जेसी-146787एच) पहले भारतीय नौसेना, 02 अक्टूबर 2001

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-143671ए) पहले भारतीय नौ सेना, 04 जनवरी 2002

नायब सूबेदार साईमन डीकरूज (जेसी-226940एम) पहले मैकनाइज़ इन्फैन्ट्री, 18 अप्रैल 2002

नायब सूबेदार देवी दत्त तिवारी (जेसी-178056एन) पहले कुमांऊ रेजीमेन्ट, 07 जुलाई 2002

नायब सूबेदार अबल सिंह (जेसी-528292एम) पहले गढ़वाल राइफल्स, 02 जनवरी 2003

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-578263एन) पहले जैक राइफल्स, 02 जनवरी 2003

नायब सूबेदार सुलेमान (जेसी-208306एफ) पहले ग्रनेडियर्स, 04 जनवरी 2003

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार देवकी नन्दन (जेसी-170816डब्ल्यू), पहले ईएमई, 05 जनवरी 2002

सूबेदार घुम्रा प्रधान (जेसी-164862पी), पहले 11 गोरखा राइफल्स, 04 जुलाई 2002

सूबेदार श्याम लाल (जेसी-162230एल), पहले जैक एल आई, 06 जुलाई 2002

सूबेदार अब्राहिम (जेसी-157282एक्स), पहले ग्रनेडियर्स, 13 अक्टूबर 2002

सूबेदार श्याम लाल (जेसी-218363डब्ल्यू), पहले जैक राइफल्स, 02 जनवरी 2003

सूबेदार केशव सिंह (जेसी-369356एक्स), पहले कोर आफ सिगनल्स,
03 जनवरी 2003

सूबेदार गुरदेव सिंह परमार (जेसी-166077ए), पहले डोगरा रेजीमेन्ट,
04 जनवरी 2003

सूबेदार मदन लाल शर्मा (जेसी-201580डब्ल्यू), पहले मैकनाइज
इन्फैन्ट्री, 02 मई 2003

सूबेदार दर्शन लाल (जेसी-448155ए), पहले ग्रनेडियर्स, 02 मई 2003

सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-149258एम), पहले आर्टी, 02 मई 2003

सूबेदार आर गुनेसखरण (जेसी-145388एक्स), पहले मद्रास रेजीमेन्ट,
02 मई 2003

सूबेदार करतार सिंह (जेसी-578439एच), पहले जैक राइफल्स, 02
मई 2003

सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-236827एल), पहले आर्मड कोर, 02 मई
2003

सूबेदार राम सिंह (जेसी-184900एफ), पहले ब्रिगेड आफ दी गार्ड्स,
02 मई 2003

सूबेदार ब्रह्मसपति सिंह (जेसी-156376एच), पहले पैरा रेजीमेन्ट, 04
मई 2003

सूबेदार हनुमान सिंह (जेसी-468176एक्स), पहले राज राइफल्स, 12
जुलाई 2003

सूबेदार क्लोड गुरंग (जेसी-193928एच), पहले 11 गोरखा राइफल्स,
12 जुलाई 2003

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार चुनी लाल (जेसी-182089डब्ल्यू), पहले आर्टी, 03
जनवरी 2002

नायब सूबेदार सुखदेव राज (जेसी-216714एफ), पहले ब्रिगेड आफ
दी गार्ड, 04 जुलाई 2002

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-166614एक्स), पहले आर्मड
कोर, 12 अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार राजनकंडन (जेसी-136045ए), पहले ए पी एस, 17
अक्टूबर 2002

नायब सूबेदार बिसवानाथ मैती (जेसी-661770ए), पहले ए एस सी
(एम टी), 03 जनवरी 2003

नायब सूबेदार ध्रुव (जेसी-194485वाई), पहले ब्रिगेड आफ दी गार्ड,
02 मई 2003

नायब सूबेदार राज पाल (जेसी-428483एम), पहले पंजाब रेजीमेन्ट,
02 मई 2003

नायब सूबेदार चन्द्र मणी प्रसाद (जेसी-216692एन), पहले ब्रिगेड
आफ दी गार्ड्स, 03 मई 2003

टी के एम पिल्लै
अवर सचिव

सं. 366, दिनांक 1 जुलाई 2004--रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ओ
राजगोपाल) के पद त्यागने और 'कार्य समापन अवधि' के समाप्त होने के
फलस्वरूप आई सी एल एस के अधिकारी और रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री
(श्री ओ. राजगोपाल) के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्यरत
श्री संजय शौरी की सेवाएं 31 मई 2004 (अपराह्न) से कंपनी कार्य विभाग
को सौंपी जाती हैं।

वी. सरस्वती
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 367, दिनांक 7 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर
जिन्हें, स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था कि पुष्टि दिनांक
9 जुलाई 2001 से करते हैं। उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पूर्व
दिनांक (Ante-date) प्रदान की जाती है :-

वैमानिक (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर शिलादित्य सेन (26229), आर एन भट्ट (26216),
सुमीत कुमार (26228), दिनांक 09 जुलाई 1999 से।

वैमानिक (इलैक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर रविन्द्र सिंह (26240), दिनांक 09 जुलाई 1999 से।
राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन अफसरों को उनके नाम के
सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं :-

भारतीय वायु सेना प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर आर प्रियदर्शिनी (26782), शिफाली अग्रवाल
(26783), चीना अरोड़ा (26784), प्रतिभा शर्मा (26785), मणिका
मदान (26786), निष्ठा मलिक (26787), गुजन कोशिक (26788),
मनीषा पटी (26789), दिनांक 15 दिसम्बर 2001 से।

पारिभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर भावना दत्ता (26790), पायल जोशी (26791),
मोनिका वशिष्ठ (26792), सारिका (26793), सुखविंदर कौर सूदन
(26794), स्वाति श्रीवास्तव (26795), दिनांक 15 दिसम्बर 2001 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन)
प्रदान किया गया था पुष्टि करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईंग अफसर सुरेश छिंताड़ा (26952), मनोज गेरा (26953),
अविनाश सिंह (26954), परिजात झा (26955), धर्मेन्द्र सिंह तोमर
(26956), आशीष सोरड (26957), रोनाल्ड केविन सेराओ (26958),
श्यामंतक रॉय (26959), नितेश कुमार (26960), योगेन्द्र धनखड़
(26961), अमित कुमार (26962), तन्मय खरे (26963), पी गौरव
अरजारिया (26964), पवन बेनीवाल (26965), विजय कुमार गुप्ता
(26966), अनुज बहल (26967), के सूर्यनारायण (26968), पंकज
गुप्ता (26969), तुषार शामराव चव्हाण (26970), अनिल कुमार

रेप्सवाल (26971), पोलीनैनी वरुण कुमार (26972), रामागोंडा शम्भुगौडा पाटिल (26973), वरुण सलारिया (26974), अंकित गर्ग (26975), अमित राणा (26976), सुरजीत मान (26977), आशुतोष वसंत अठवले (26978), सौरभ गुप्ता (26979), गुरप्रीत सिंह घुम्न (26980), संदीप त्रिपाठी (26981), पृथ्वी सिंह चौहान (26982), धीरज गुलाटी (26983), बिमिडी सतीश रेड्डी (26984), मथाला जीनो थॉमस (26985), अंकित मेहरोत्रा (26986), बिकास कुमार साहू (26987), हरप्रीत सिंह भाटी (26988), सौरभ कुमार (26989), राहुल आहुजा (26990), रोहित पंवार (26991), रजत कुमार सिंह (26992), क्षितिज वशिष्ठ (26993), हंस राज भट्ट (26994), क्षितिज अवस्थी (26995), मनतेज सिंह (26996), रंजुल शर्मा (26997), राहुल पांडे (26998), पंकज कुमार बोबडे (26999), टी संमुखा (27000), राहुल सिंह (27001), सुखविन्द सिंह मुलतानी (27002), अक्षय राय (27003), चंदन गर्ग (27004), राजेन्द्र वर्मा (27005), नीतेष पाठक (27006), विकास हुड्डा (27007), मोहम्मद कासिफ खान (27008), दिनांक 22 जून 2002 से।

फ्लाइंग अफसर अमित सिंह (26684), सिद्धार्थ सिंह गहलोत (26685), परमिंदर आंटिल (26686), कपिलदीप सिंह (26687), थॉमसन जकारिया (26688), मनीष तोलानी (26689), शोभित निष्ठा (26690), प्रवीन गोयल (26691), इकबाल सिंह जोहल (26692), प्रवीन कुमार अग्रवाल (26693), अभिमान एम (26694), नमन बुन्देला (26695), हरकीरत सिंह (26696), गिरीष कोनर (26697), अमनिन्दर सिंह पूनिया (26698), रोहित कुमार काद्यान (26699), विपुल मिश्र (26700), अभिनय अरोड़ा (26701), अदित्य द्विवेदी (26702), अनूप सिंह (26703), विकास ऋषि (26704), तथागत भारद्वाज (26705), शिरीष बोकिल (26706), आशीष गुप्ता (26707), विवेक शर्मा (26708), आशीष त्रिखा (26709), अंकुर नायक (26710), दीपक कुमार (26711), पेम्सदा रवि पोन्नप्पा (26712), सुखदीप सिंह (26713), अमियाकांत पटनायक (26714), अमित शर्मा (26715), अनुप सिंह (26716), अनित दुबे (26717), राकेश शर्मा (26718), अलोक कुमार (26719), प्रभात शुक्ला (26720), विक्रम सिंह (26721), कन्दीप नाथ तिवारी (26722), वाई वी रविन्द्र कुमार (26723), अनीष धीमन (26724), विक्रम त्यागरमन (26725), अमित कथूरिया (26726), नितिन तलवार (26727), शीतांशु सिन्हा (26728), जयदीप सिंह (26729), विशाल लाखेश (26730), निखिल महरोत्रा (26731), अमित अविनाष साठे (26732), हरसीरत सिंह सिद्ध (26733), अशीष शर्मा (26734), शिवेन्द्र सिंह (26735), आशीष ध्यानी (26736), शक्ति सिंह बिष्ट (26737), सिद्धार्थ प्रियदर्शी (26738), आशीष कुमार (26739), अभिजीत प्रकाश लोखंडे (26740), अमित श्रीवास्तव (26741), गौतम मुखर्जी (26742), नितीन उपाध्याय (26743), दिनांक 15 दिसम्बर 2001 से दिनेश सम्बरवाल (26899), दिनांक 18 मार्च 2002 से शिषिर सुकांत (26951), दिनांक 23 अप्रैल 2002।

संजीव श्रीवास्तव
स्क्वाड्रन लीडर
ए डी पी ओ 3डी

थल सेना विभाग

सं. 368, दिनांक 1 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार शक्ति सिंह (जेसी-205174एन), 01 जुलाई 2003
नायब सूबेदार देश मान राय (जेसी-612047पी), 01 जुलाई 2003
नायब सूबेदार तेज प्रताप यादव (जेसी-840530वाई), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार शाम लाल (जेसी-840580के), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-154804एक्स), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार पिचइया एस (जेसी-178707वाई), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार मानी चन्द (जेसी-135829पी), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार गोपाल लिम्बू (जेसी-148503एक्स), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार औम प्रकाश (जेसी-146782पी), 01 जनवरी 2004
नायब सूबेदार खिम सिंह बोहरा (जेसी-148488एन), 01 फरवरी 2004
नायब सूबेदार किशोर रतनामणि राय (जेसी-163723वाई), 01 फरवरी 2004
नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह दलपतिया (जेसी-216655ए), 01 फरवरी 2004
नायब सूबेदार गोविन्दासामी नारायणन (जेसी-143460के), 01 फरवरी 2004
नायब सूबेदार के लोगानाथन (जेसी-159773एम), 01 फरवरी 2004
नायब सूबेदार देव राज (जेसी-179244एफ), 01 फरवरी 2004
नायब सूबेदार अशोक कुमार मिश्रा (जेसी-840532के), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार विथल मिमप्पा जीगाजी नागी (सं. 10149281एक्स अब जेसी-841548एफ), 25 फरवरी 2004 *

हवलदार अकला केसरीयर (सं. 14502676ए अब जेसी-841553एम), 08 जनवरी 2004 *

हवलदार कुलवंत सिंह (सं. 10196861एक्स अब जेसी-841556ए), 03 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003)

हवलदार शिव प्रसाद (सं. 8823858एफ अब जेसी-841560एच), 17 मार्च 2004 **

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार जी राधाकृष्णन (सं. 14298764एम अब जेसी-841578वाई), 17 मार्च 2004***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक सोगलाड चिम्या बासवानेपा (सं. 13917442एल अब जेसी-841396एल), 21 जनवरी 2004****

**** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर 2003)

हवलदार लिपिक हरि नारायण शर्मा (सं. 12448285एम अब जेसी-841544एल), 13 जनवरी 2004*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003)

हवलदार लिपिक शेखर चन्द्र जोशी (सं. 10181054एल अब जेसी-841545एन), 08 मार्च 2004*****

हवलदार लिपिक जयबीर सिंह (सं. 9085168पी अब जेसी-841547वाई), 26 दिसम्बर 2003*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार लिपिक अमरजीत सिंह (सं. 1244166एफ अब जेसी-841585पी), 07 जनवरी 2004*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004)

हवलदार लिपिक बाघ सिंह (सं. 2863686पी अब जेसी-841586एक्स), 24 मार्च 2004*****

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जनवरी 2004)

टी के एम पिल्लै
अवर सचिव

सं. 369, दिनांक 2 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार अब्दुल हम के ए कुन्नेल (जेसी-222008डब्ल्यू), 16 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004x

सूबेदार परसोतम सिंह (जेसी-222508एन), 01 मार्च 2004

सूबेदार मोहीन्दर सिंह (जेसी-221975वाई), 04 मार्च 2004/01 नवम्बर 2003x

सूबेदार सत्यानंदन के (जेसी-222240एफ), 30 मार्च 2004/01 फरवरी 2004x

सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-222248एन), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार जगत सिंह (जेसी-224627एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार कुन्हाप्पन ए वी (जेसी-222249डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर आरटीजन (ई सी) के रैंक में

सूबेदार फुलकांत तिवारी (जेसी-750472वाई), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी डी) के रैंक में

सूबेदार वर्धिस पूनन (जेसी-224060एक्स), 22 मार्च 2004/01 मार्च 2004x

सूबेदार मेजर झाईवर (एम टी) के रैंक में

सूबेदार कामाख्या नारायण सिंह (जेसी-749111एन), 01 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003x

सूबेदार तपन कुमार बेहरा (जेसी-749085एक्स), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार परमज सतीश भूपाल (जेसी-754067एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार रवीन्द्रनाथ पी (जेसी-754767एम), 10 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004x

नायब सूबेदार सुनील कुमार शर्मा (जेसी-754769एक्स), 13 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004x

नायब सूबेदार आर पुगजेन्दि (जेसी-754870एक्स), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार नेत्रपाल सिंह (जेसी-754624एच), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार ताराचंद (जेसी-754901एम), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार प्रसन्न कुमार पांडा (जेसी-754785पी), 05 मार्च 2004/01 फरवरी 2004x

नायब सूबेदार सुधाकर बारिक (जेसी-754821पी), 09 मार्च 2004/01 मार्च 2004x

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-754890एल), 10 मार्च 2004/01 मार्च 2004x

नायब सूबेदार विद्या भूषण तिवारी (जेसी-754494पी), 13 मार्च 2004/21 जनवरी 2004x

नायब सूबेदार ओम शरण (जेसी-754791एच), 19 मार्च 2004/20 जनवरी 2004x

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-754872एच), 21 मार्च 2004/01 मार्च 2004x

नायब सूबेदार कौसर कुमार सिंह (जेसी-754828वाई), 23 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार गणेश चन्द्र बिश्वास (जेसी-753836एल), 31 मार्च 2004/01 जुलाई 2003×

नायब सूबेदार आदेश कुमार (जेसी-754524एफ), 02 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार अमर कुमार शर्मा (जेसी-754250एफ), 16 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-754362एफ), 20 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार बच्चे लाल मंडल (जेसी-754492के), 26 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार आर पी एस यादव (जेसी-754731एन), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जेसी-754771पी), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार अरुण कर्माकर (जेसी-754892डब्ल्यू), 09 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार हेम चंद जोषि (जेसी-754270पी), 01 मार्च 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जेसी-754819एक्स), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार मान सिंह राथौर (जेसी-754826एन), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-754830डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार कार्तिक चन्द्र घोष (जेसी-754831वाई), 13 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार प्रकाश उपाध्याय (जेसी-754827डब्ल्यू), 21 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार एस बी पांडे (जेसी-754803एम), 05 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार टी के शिन्डे (जेसी-756334एन), 29 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-756329एच), 29 मार्च 2004/01 नवम्बर 2003×

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार एल एम राव (जेसी-753539ए), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार जफर पुजा खान (जेसी-753510पी), 03 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004×

सूबेदार टेक ए वी एन के रैंक में

नायब सूबेदार राम शब्द (जेसी-755407एच), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार कीर्ति वर्धन सिंह मनरल (जेसी-755739एम), 01 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार एस एस पी सिंह (जेसी-755408एल), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जेसी-755409एन), 23 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार मोहपत सिंह राजपूत (जेसी-755612के), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार बालकृष्ण के (जेसी-753502डब्ल्यू), 05 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004×

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार संजय कुमार धिमान (जेसी-753869डब्ल्यू), 21 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार गिरधारी (जेसी-753870एल), 01 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार राम सेवक प्रसाद (जेसी-753996एल), 07 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार उतपल कांति दास (जेसी-753998डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004×

सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्ण राम शरण (जेसी-752088डब्ल्यू), 02 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार एम बाबू (जेसी-752089वाई), 08 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004×

सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार भरद्वाज (जेसी-755119डब्ल्यू), 24 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2002×

नायब सूबेदार अनिल कुमार सिंह (जेसी-754839एल), 26 मार्च 2004/01 सितम्बर 2002×

नायब सूबेदार राम प्रेम पांडे (जेसी-755984पी), 29 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार आलमजित सिंह (जेसी-755987एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार धर्मशिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार रांबाबु मिश्रा (जेसी-749194के), 03 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार गुप्ता नारायण सिंह (जेसी-754154एम), 01 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-753923वाई), 01 अक्टूबर 2003/10 जून 2003×

नायब सूबेदार रति भान (जेसी-753620के), 01 अक्टूबर 2003/01 नवम्बर 2002×

नायब सूबेदार परिखिता बेहरा (जेसी-754148वाई), 13 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार प्यार सिंह (जेसी-754061एक्स), 17 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार के बाबू (जेसी-754182डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार गरुड पी आर (जेसी-754096एन), 05 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार रमेश बाबु (जेसी-754093ए), 06 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार एस एस कडियान (जेसी-752548एल), 10 नवम्बर 2003/25 जून 2003×

नायब सूबेदार रवीन्द्रनाथन पिल्लै (जेसी-752654एल), 13 नवम्बर 2003/01 जून 2002×

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-753303एच), 17 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2002×

नायब सूबेदार जगजीवन राम (जेसी-754227एन), 24 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार दयानन्द (जेसी-754179वाई), 24 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार बन्शी धर पांडे (जेसी-754178डब्ल्यू), 25 नवम्बर 2003/01 अगस्त 2003×

नायब सूबेदार संतोश कुमार अवस्थी (जेसी-754377के), 26 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार मुरलीधरन के (जेसी-753556एन), 01 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2002×

नायब सूबेदार अवधेश प्रसाद (जेसी-754177एन), 17 दिसम्बर 2003/01 अगस्त 2003×

नायब सूबेदार एम एस रावत (जेसी-750796के), 15 दिसम्बर 2003/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार नरान्द्र राय (जेसी-754266एम), 16 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार विमलकर सुरेश भगवान (जेसी-754372एल), 16 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार डॉ सुरेन्द्र नाथ रेड्डी (जेसी-754384ए), 18 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार चन्दर देव राम (जेसी-754235एम), 18 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार रवीन्द्रन पिल्लै एस (जेसी-754271के), 18 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार ख्वाजामोहमद अफताबुल्ला (जेसी-754247एफ), 18 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार भूदयाल सिंह (जेसी-754493एम), 18 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार शिव राम कुशवाहा (जेसी-754452एच), 19 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार एम वी कृष्णा रेड्डी (जेसी-754388डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार मोहम्मद सरफुद्दिन (जेसी-754455डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार जाधव तनाजी पांडु (जेसी-754265के), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार कृष्ण चान विश्वकर्मा (जेसी-754352एक्स), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार के वी वेणुगोपालन (जेसी-754369एल), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार साजन जी (जेसी-754381एम), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार पटोले नारायण राजाराम (जेसी-754365पी), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार सुंदरविड्वेलु एस (जेसी-754121एफ), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-754359एफ), 19 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार एच मोहन कुमार (जेसी-753543वाई), 19 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2002×

नायब सूबेदार रमेश चन्दर पापनाई (जेसी-754353ए), 20 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार एच जी सिंह (जेसी-754269ए), 20 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार राजवंत सिंह (जेसी-754256एच), 20 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार जेजी जी (जेसी-754337एच), 22 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र यादव (जेसी-754553डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार धौकल सिंह (जेसी-754378एन), 22 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार रवीन्द्र कुमार (जेसी-754347एम), 22 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार सुभाष चन्द शर्मा (जेसी-754358वाई), 22 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-754459एम), 23 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार आई कन्नन (जेसी-754230एन), 24 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार सुरेश आर (जेसी-754375वाई), 24 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार सिया राम (जेसी-754341एल), 24 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार बादाल कुमार नायक (जेसी-754805एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार सुनील कुमार सिन्हा (जेसी-754410डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार बी के मिश्रा (जेसी-754759एन), 02 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

सूबेदार टेक (ए वी एन) के रैंक में

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-755380डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2003/01 अगस्त 2003×

नायब सूबेदार राजु सुनागर (जेसी-755737एफ), 12 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-753792एन), 07 अगस्त 2003/01 नवम्बर 2002×

नायब सूबेदार महेश चन्द्र (जेसी-754252एम), 17 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह (जेसी-754231डब्ल्यू), 25 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार के एस राव (जेसी-754399एच), 25 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार डेनिस के (जेसी-754624एम), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार इन्द्र नाथ झा (जेसी-754562एक्स), 01 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार बलिक मधुकर सखाराम (जेसी-754611पी), 02 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार कमला प्रसाद (जेसी-754808एल), 03 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार हन्स राज (जेसी-754693एच), 06 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार अनिल कुमार सक्सेना (जेसी-754521एन), 07 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार राम फल सिंह (जेसी-754447एक्स), 19 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-754730एल), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार जेसी पांडे (जेसी-754726एच), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार सुरेश चंद्र जोशी (जेसी-754732डब्ल्यू), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार ए के सिन्हा (जेसी-754729डब्ल्यू), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार सुनीलजित के (जेसी-754710एम), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-754725ए), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार बी के सिंह (जेसी-754770एम), 04 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार अमर चंद (जेसी-754720एफ), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह रावत (जेसी-754794डब्ल्यू), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार झब्बू सिंह (जेसी-754722एम), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-755005एन), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार अरुण कुमार शर्मा (जेसी-754754पी), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार रबीन्द्र नाथ पांडे (जेसी-754724एच), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार सुरेश वी (जेसी-754795वाई), 04 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार सूसाय वियकुलमि (जेसी-754631एच), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार सुखजिन्दर पाल सिंह (जेसी-754766के), 05 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-754807एल), 05 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार राज किशोर तिवारी (जेसी-754727एल), 05 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार अरविंद कुमार (जेसी-754790ए), 05 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार वेणुनि ए टी (जेसी-753525एम), 05 फरवरी 2004/27 नवम्बर 2004×

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-754789एल), 05 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार रमयन प्रसाद (जेसी-754792एम), 06 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार सुरिन्दर कुमार (जेसी-754357डब्ल्यू), 06 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-754627ए), 07 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार वीर भान सिंह (जेसी-754810एच), 07 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार निर्भय सिंह (जेसी-754788एच), 07 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार सन्वत राम (जेसी-754755एक्स), 07 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार मोहमद शहाबुदीन (जेसी-754273एच), 10 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार सुसीलन के (जेसी-754793एन), 11 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-754885ए), 12 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार संतोष कुमार शर्मा (जेसी-754083डब्ल्यू), 06 फरवरी 2004/01 अगस्त 2003×

नायब सूबेदार गणि अहमद (जेसी-754721के), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार नंद किशोर नोटियाल (जेसी-754728एन), 13 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार पी जीवानंदन (जेसी-753900एक्स), 14 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2002×

नायब सूबेदार नरेश पाल (जेसी-754409एक्स), 21 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-754360डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार सुरेश झा (जेसी-754594ए), 12 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-754601एल), 13 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार रमाकांत त्रिपाठी (जेसी-754368एच), 14 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

नायब सूबेदार मोहन चन्द्रन जी (जेसी-754796एफ), 02 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार कैलाश चंद (जेसी-754768पी), 04 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-754723पी), 07 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार दूब्बा वेणुगोपाल रेड्डी (जेसी-754349एम), 07 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2004×

नायब सूबेदार हरीश चंदर (जेसी-754893वाई), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार गोविंद सिंह नागरकोटि (जेसी-754874एन), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार सूबेदार यादव (जेसी-754875डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार बदियुजामा खान (जेसी-754898के), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार करण सिंह (जेसी-754773ए), 03 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार बी पी नामदेव (जेसी-754873एल), 03 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार पकीरप्पा कामत (जेसी-754820एम), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार रमा शंकर चौधरी (जेसी-754899ए), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार सुरेश चंद (जेसी-754888एन), 05 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार पी लिंग राज (जेसी-754897पी), 05 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार मोहर चंद जात (जेसी-754818पी), 05 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-754896एम), 06 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार धीरेन्द्र वर्मा (जेसी-734777डब्ल्यू), 06 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार वसुदेवन पी (जेसी-754779एफ), 07 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार कमिल कच्छप (जेसी-754817एम), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-754816के), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार अभिमन्यु पात्रि (जेसी-754868ए), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-754900के), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार बर्शन बीर (जेसी-754778वाई), 08 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार कलिपाडा सरकार (जेसी-754902पी), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार करनेल सिंह (जेसी-754776एन), 08 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार शीष राम (जेसी-754895के), 09 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार दिनेश चंद्रा पांडे (जेसी-753701के), 10 मार्च 2004/23 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह यादव (जेसी-754196वाई), 10 मार्च 2004/09 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार वी दुराई (जेसी-755049एच), 10 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार कुट्टा सांबा मूर्ति (जेसी-754825एल), 10 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार स्वरूप कुमार (जेसी-754829एफ), 10 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार सोहन सिंह कुशवाहा (जेसी-754780डब्ल्यू), 11 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार सत्येन्द्र पाल (जेसी-754869एच), 20 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

नायब सूबेदार दीपक सिंह (जेसी-754800वाई), 03 मार्च 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार अनिल कुमार मिश्रा (जेसी-754599वाई), 07 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार सुंदरेशन आर (जेसी-753890वाई), 18 मार्च 2004/01 अगस्त 2003×

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार ओ एस सुकुमारन (जेसी-756422के), 04 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-756595एफ), 04 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार बालगोविन्द (जेसी-756777पी), 06 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार सुभाष चंद (जेसी-756427एच), 12 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार तपस कुमार मुखर्जी (जेसी-755382एफ), 01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-755383एक्स), 03 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार एस जया शंकर (जेसी-755406ए), 05 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार धरम पाल कुंडु (जेसी-753868एन), 12 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार गोविंद सिंह (जेसी-753668एक्स), 09 मार्च 2004/01 नवंबर 2003×

नायब सूबेदार राम अवतार यादव (जेसी-753939के), 11 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

सूबेदार रिकवरी रैंक के ग्रेड में

नायब सूबेदार रमा कान्त (जेसी-752084ए), 04 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

नायब सूबेदार वीरेन्द्र चंद (जेसी-752087एन), 08 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-755369एक्स), 16 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार तुसारकांति बिस्वाल (जेसी-755817वाई), 01 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

नायब सूबेदार एल सी अमाले (जेसी-754968एल), 28 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2002×

नायब सूबेदार दिलीप कुमार चेतिया (जेसी-755024डब्ल्यू), 03 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2002×

नायब सूबेदार विद्युत दास लाहा (जेसी-755025वाई), 27 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2002×

नायब सूबेदार रामु सिंह (जेसी-755118डब्ल्यू), 17 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2002×

सूबेदार धर्मशिक्षक के रैंक में

सूबेदार रमेश कुमार राय (जेसी-749193एफ), 06 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहीकल के रैंक में

ए रविचन्द्रन (सं. 14587420एम अब जेसी-758803के), 03 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

रामकुमार शर्मा (सं. 14608695डब्ल्यू अब जेसी-758725एक्स), 19 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

अनूप कुमार देबनाथ (सं. 14603213एम अब जेसी-758668एफ), 12 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

आर एलंचेजियन (सं. 14599068ए अब जेसी-758716डब्ल्यू), 07 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

राजेन्द्रन टी (सं. 14579807ए अब जेसी-758670वाई), 09 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

पी किट्टु (सं. 14593662एल अब जेसी-758806एक्स), 01 फरवरी 2004

मयप्पन आर (सं. 14603342एम अब जेसी-758862डब्ल्यू), 09 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

धरम पाल सिंह (सं. 14598051ए अब जेसी-758675एक्स), 08 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

दिलीप कुमार मल्लिक (सं. 14608821एक्स अब जेसी-758747डब्ल्यू), 17 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

षाबु के सी (सं. 14588247ए अब जेसी-758712ए), 10 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

नारायण बिसोय (सं. 14608656एक्स अब जेसी-758724पी), 03 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

राकेश कुमार (सं. 14594486एल अब जेसी-758807ए), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

पाटिल राजेन्द्र किसान (सं. 14603370वाई अब जेसी-758812एल), 01 फरवरी 2004

सुनील बरन गणतैत (सं. 14604199एक्स अब जेसी-758813एन), 05 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

प्रेम सिंह (सं. 14602218वाई अब जेसी-758809एल), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

नरेश कुमार (सं. 14585307वाई अब जेसी-758789एच), 08 फरवरी 2004/14 सितम्बर 2003×

दयाराम सिंह (सं. 14592377ए अब जेसी-758715एन), 10 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

देवानंद (सं. 14602576के अब जेसी-758810ए), 01 फरवरी 2004

तंदस्कर रंगलाल सीताराम (सं. 14595461एल अब जेसी-758804एम), 31 जनवरी 2004/29 जनवरी 2004×

सतपाल सिंह (सं. 14609877डब्ल्यू अब जेसी-758814डब्ल्यू), 12 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

राम प्रकाश (सं. 14558847एन अब जेसी-758669के), 10 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

संतोश कुमार सतपाहि (सं. 14600316ए अब जेसी-758677एच), 02 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

लवा के आर (सं. 14608462पी अब जेसी-758723एम), 12 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

दिनेश कुमार जोशि (सं. 14599524ए अब जेसी-758919ए), 01 मार्च 2004

करुणेश कुमार दीक्षित (सं. 14587453एक्स अब जेसी-758917पी), 05 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

धर्मराज नहक (सं. 14601430के अब जेसी-758718एफ), 05 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

जगदीश कुमार (सं. 14599841एफ अब जेसी-758676ए), 26 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

सिसिरा कांति पात्रो (सं. 14600942के अब जेसी-758808एम), 01 फरवरी 2004

नरशपाल सिंह मालिक (सं. 14602658एम अब जेसी-758811एच), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

तपन कुमार पाल (सं. 14602433के अब जेसी-758790एक्स), 06 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

राजेश एल के (सं. 14609959वाई अब जेसी-758726ए), 09 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

राजीव सिंह (सं. 14601281एफ अब जेसी-758855ए), 10 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

राजीव वर्मा (सं. 14609221एफ अब जेसी-758864एफ), 11 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

सुरेश कुमार मिश्रा (सं. 14601307एल अब जेसी-758877वाई), 20 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

मदन प्रसाद (सं. 14574741एल अब जेसी-758875एन), 20 फरवरी 2004/15 जनवरी 2004×

सीनिवासगन सी (सं. 14605422एच अब जेसी-758863वाई), 23 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

पिडिन्टला श्रीनिवास राव (सं. 14589674एच अब जेसी-758876डब्ल्यू), 26 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट के रैंक में

दुर्गेश कुमार (14606648ए अब जेसी-758630एक्स), 24 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

शैतान राम बिघोई (14607266एच अब जेसी-758851के), 03 फरवरी 2004/04 फरवरी 2004×

रमेश चंद (14609900वाई अब जेसी-758848के), 04 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

प्रदीप कुमार (14604747के अब जेसी-758785एम), 20 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक लाईन के रैंक में

हजारी लाल (14571821एक्स अब जेसी-758568डब्ल्यू), 05 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

अखिलेश सिंह (14585286एन अब जेसी-758570एन), 29 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

शाम्यूल एम एम (14579057एम अब जेसी-758774ए), 27 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

घोलाप्रम चन्द्र वसुदेव (14590477एम अब जेसी-758414के), 05 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

बाबु एम एस (14574164के अब जेसी-758847एफ), 04 फरवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

राधा श्याम पाल (14597224ए अब जेसी-758505एन), 14 दिसम्बर 2003/16 अक्टूबर 2003×

कल्याण सिंह (14590822पी अब जेसी-758506डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

ज्योतिर्मय साहा (14592061एन अब जेसी-758583एल), 07 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

जेम्स एम एम (सं. 14594531एम अब जेसी-758222एम), 02 फरवरी 2004/01 अप्रैल 2003×

बजरंग सिंह (सं. 14579263एफ अब जेसी-758587एफ), 02 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

मयारिया सांमन राजसी (सं. 14571874डब्ल्यू अब जेसी-758586वाई), 02 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

के वी एल एस वी प्रसाद राव (सं. 14572899पी अब जेसी-758883एम), 25 फरवरी 2004/18 जनवरी 2004×

अनिल कुमार मिश्रा (सं. 14598052एच अब जेसी-758895एफ), 01 मार्च 2004

सुरेश के (सं. 14574537एम अब जेसी-758881एफ), 01 मार्च 2004/15 जनवरी 2004×

गंभीर सिंह चौधरी (सं. 14597001एच अब जेसी-758894वाई), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

श्रीनिवासु डी के (सं. 14575451ए अब जेसी-758882के), 01 मार्च 2004/15 जनवरी 2004×

समयून शेख (सं. 14608209एन अब जेसी-758901के), 01 मार्च 2004

मयारिया सरमन राजसी (सं. 14571874डब्ल्यू अब जेसी-758586वाई), 01 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

प्रकाश महीपति पाटिल (सं. 14590481पी अब जेसी-758850एफ), 05 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक राडार के रैंक में

राजेश कुमार पांडे (सं. 14606300एल अब जेसी-758618डब्ल्यू), 05 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

पवन कुमार (सं. 14574124एच अब जेसी-758782वाई), 03 फरवरी 2004/23 नवम्बर 2003×

जुगल किशोर (सं. 14607112डब्ल्यू अब जेसी-758621डब्ल्यू), 07 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

सन्नी एल (सं. 14606439एच अब जेसी-758928एफ), 11 मार्च 2004/15 जनवरी 2004×

संत कुमार (सं. 14606242एम अब जेसी-758857एल), 10 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैंक में

फैजूर रहमन अहमद (सं. 14580487एच अब जेसी-758781डब्ल्यू), 28 जनवरी 2004/23 नवम्बर 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक गन के रैंक में

एम हस्सन (सं. 14608891डब्ल्यू अब जेसी-758607के), 26 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

रवि पी एन (सं. 14601092एक्स अब जेसी-758601एच), 23 अक्टूबर 2004/01 दिसम्बर 2003×

सुरेश टेगुर (सं. 14611716एम अब जेसी-758784के), 06 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

के कुत्ता लिंगम (सं. 14602911एच अब जेसी-758611एम), 05 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

प्रकाश एन (सं. 14603025एल अब जेसी-758612पी), 14 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

वीरेंदर कुमार अग्निहोत्रि (सं. 14601150डब्ल्यू अब जेसी-758885एक्स), 27 फरवरी 2004/29 जनवरी 2004×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आरमोर के रैंक में

करणम नागेश्वर राव (सं. 14609634एल अब जेसी-758778डब्ल्यू), 07 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

गुरुव प्रदीप जयराम (सं. 14603086एच अब जेसी-758777एन), 27 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

राम किशोर (सं. 14607693वाई अब जेसी-758567एन), 01 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

ज्योति रंजन समन्तरे (सं. 14607665एम अब जेसी-758546एक्स), 17 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

अशोक कुमार (सं. 14594871पी अब जेसी-758779वाई), 04 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

कृष्ण पाल (सं. 14608867ए अब जेसी-758853पी), 09 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

हरि चंद (सं. 14612246वाई अब जेसी-758930वाई), 12 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

धरम बीर सिंह (सं. 14610037एच अब जेसी-758868एक्स), 26 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

चोटे लाल पटेल (सं. 14600533डब्ल्यू अब जेसी-758596एच), 03 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

ओम प्रकाश (सं. 14572489वाई अब जेसी-758444एफ),
23 दिसम्बर 2003/01 अगस्त 2003×

द्वारिका प्रसाद रावत (सं. 14602722वाई अब जेसी-758370एक्स),
17 दिसम्बर 2003/01 सितम्बर 2003×

लखवीन्दर सिंह (सं. 14600599एम अब जेसी-758786पी), 20 जनवरी
2004/01 जनवरी 2004×

शिव कुमार प्रसाद तिवारी (सं. 14568434एक्स अब जेसी-
758780एन), 27 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

रजत कुमार बिश्वास (सं. 14574373एफ अब जेसी-
758590एफ), 03 फरवरी 2004/14 सितम्बर 2003×

अजित कुमार एन सी (सं. 14596937वाई अब जेसी-
758783एफ), 01 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वी एफ (ए वी एन) के रैंक में
कृत्तिबस गराई (सं. 14606464एफ अब जेसी-758346एफ),
06 फरवरी 2004/20 मार्च 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वी एफ (आई एन पी)
नागेन्द्र सिंह (सं. 14546014एक्स अब जेसी-758565एच),
26 दिसम्बर 2003/01 सितम्बर 2003×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वी एफ (ई एल ई) के रैंक में
रघुनाथ जेना (सं. 1456310एफ अब जेसी-758448एक्स),
12 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हरि कुमार टी (सं. 14573321वाई अब जेसी-758582एच),
01 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

विजय कुमार साहू (सं. 14569143एल अब जेसी-758581ए),
31 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

×पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक के रैंक में)

नाम पदोन्नति की तारीख

धनंजय त्रिपाठी (जेसी-7582255एक्स), 16 अगस्त 2003

एस के खुराना
अवर सचिव

सं. 370 दिनांक 6 जुलाई 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी आयोग

मेजर से ले. कर्नल (समयमान) के मूल रैंक में :--

आई सी-45131 आर गोसाईं सिग्नल्स, 10 नवम्बर 2003

आई सी-41793 एम के पाल आर्टी, 17 दिसम्बर 2003

आई सी-41770 जे यादव आर्टी, 17 दिसम्बर 2003

आई सी-40041 पी के शर्मा ए एस सी, 19 दिसम्बर 2003

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

जी एस कालरा वाई एस एम आई सी-34376 इन्फैन्ट्री, 01 जून 1997

शशि शंकर सिन्हा
उप निदेशक, सेना सचिव

वायु शाखा

सं. 371 दिनांक 7 जुलाई 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
उड़ान शाखा

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में :--

एस के सोफत वी एम (12207) ऊं (प), दिनांक 01 अक्टूबर 2003

संतोष कुमार शुक्ला
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी -2(बी)

सं. 372 दिनांक 7 जुलाई 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
विमानिक इंजीनियरिंग (मेकेनिकल) शाखा
फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

आर मुक्ति (22271), ए मेनकत (22272), वी एस यादव (22274),
ए के सिंघा (22275), आर एस राठौर (22276), के एस रावत (22277),
के के एस दास (22278), जी सिंह (22279), एन ठाकुर (22280), जी
सिंह (22281), बी सिंह (22282), एन एम राव (22283), 06 फरवरी
2004 से।

विमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) शाखा
फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

डी एस सैनी (22284), एस पी एस रन्धावा (22285), पी के मोहनती
(22286), टी नागेश्वरैया (22287), सी के शर्मा (22288), बी सिंह
(22289), टी एन रवीन्द्रन (22290), बी सिंह (22291), ए के रथ
(22292), बी अब्राहम (22293), एम द्विवेदी (22296), आर शर्मा
(22297), ए के सिंह (22298), जे के रॉय (22299), 06 फरवरी
2004 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

जे सिंघला (23004), आई एच जैदी (23006), बी मलिक (23007), आर के कक्कड़ (23008), ए के सहाय (23009), पी के मक्कड़ (23010), एस संतोष (23011), आर मारिलव (23012), पी के मिश्रा (23013), के सिंह (23014), एन कोहली (23015), बी जोशी (23016), एन के अरोड़ा (23017), डी के अग्रवाल (23018), एच एस रन्धावा (23019), ए वीरेवम (23020), ए शर्मा (23021), एम ए रहीम (23022), एन बी एन जी राव (23023), के एस शेखावत (23024), एस गुप्ता (23025), एस फिलिप (23026), 18 जून 2004 से।

शिक्षा शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

एस मजूमदार (23027), बी के मैथानी (23029), पी पांड्य (23030), पी बासु (23031), के सिंह (23032), पी के उपाध्याय (23033), 18 जून 2004 से।

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

विरडी एम एस (22904), अजय भारद्वाज (22905), बदौरिया यू के

एस (22906), विजय यादव (22909), संजीव रंगपाल (22910), 05 मार्च 2004 से।

एस. श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डी डी पी ओ-3(डी)

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं. 373 दिनांक 1 जुलाई 2004--भारत के राजपत्र संख्या 04 दिनांक 24 जनवरी 2004 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 44 दिनांक 24 दिसम्बर 2003 (भाग 1 अनुभाग 4) शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक रक्षा तथा सुरक्षा कोर, सक्सटेंटिव सूबेदार (जी डी) के रैंक में :--

के स्थान पर -- नायब सूबेदार फकीर चन्द (जे सी-840434के), 01 मार्च 2003

पढ़ा जाय -- नायब सूबेदार फकीर चन्द (जे सी-840434के), 01 मार्च 2003

टी. के. एम. पिल्लै

अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th July 2004

No. 359, dated the 1st July 2004.—The President is pleased to appoint Shri Niranjan Rakesh Minz, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, as Section Officer on regular basis in the Ministry in the scale of pay of Rs. 6500-10,500/- with effect from the forenoon of 24th May, 2004 until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Exam. Quota) for the year 2002.

The President is pleased to appoint the following Assistants, presently working as Section Officers on ad-hoc basis in the Ministry of Defence, as Section Officer on regular basis in the same Ministry w.e.f. forenoon of 31st May, 2004 until further orders, consequent on inclusion of their names in the Select List of Section Officer's Grade (Seniority Quota) for the year 2001:—

1. Shri Abhay Kumar Saran
2. Shri Madhusudan Kala
3. Smt. Renu Singh

V. SARASWATHY
Under Secy.

ARMY BRANCH

MUKHIYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 360, dated the 2nd July 2004.—The President is pleased to appoint Shri Puran Chandra, Assistant Director (OL) (Gp 'B' Gazetted) as Asstt. Director (OL) Gde-I (Gp 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- on ad hoc basis w.e.f. 20th Oct 2003 to 30th Mar. 2004 or till regular incumbents become available whichever is earlier.

2. The appointment will take effect from the dates the officers assume charge of post.

3. The appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to appoint Shri Puran Chandra, Assistant Director (OL) (Gp 'B' Gazetted) as Asstt. Director (OL) Gde-I (Gp 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- on ad hoc basis w.e.f. 01st April 2004 to 30th Sept. 2004 or till regular incumbents become available whichever is earlier.

2. The appointment will take effect from the dates the officers assume charge of post.

3. The appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer

No. 361, dated the 6th July 2004.—The President is pleased to make the following appointments:—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

- Lt Jayant Deshmukh (TA-42578), Engrs, 05 May 2003
Lt Tarun Chopra (TA-42579), Engrs, 10 May 2003
Lt Alok Kumar Roy (TA-42581), Engrs, 22 Sep 2003
Lt Yogesh Chandra (TA-42575), ASC(TA), 26 Aug 2003

M.L. SHARMA
Under Secy.

No. 362, dated the 5th July 2004.—The president is pleased to make the following appointments with effect from the dates shown against each (Navy Instruction 15/69 refers).

INDIAN NAVY
PERMANENT CADRE

TO BE

MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS I

Name, P. No., Rank, Date

- Sat Pal (097929T), MCPO I—01.08.2003
Manchand (103109R), MCPO I—01.05.2003
Rattan Singh (103784Z), MCPO I—01.05.2003
KK Vijayakumar (104126A), MCPO I—01.10.2003
Alam Singh Chauhan (105244T), MCPO I—01.11.2003
Mohammad Sadaquat (105333W), MCPO I—01.10.03
Ballav Biswal (105771R), MCPO I—01.06.2003
Gian Chand (105808Z), MCPO I—01.06.2003
S Sebastin (107121H), MCPO I—01.10.2003
Rama Kant Singh (107160Y), MCPO I—01.08.2003
Ramji Bhou (107190R), MCPO I—01.11.2003
Inder Singh Rathore (108142B), MCPO I—01.10.2003
Lal Chand Saini (140757B), MCPO I—01.08.2003
Kuldeep Singh Negi (140973W), MCPO I—01.11.2003
Kala Singh (141148T), MCPO I—01.12.2003
Siba Sankar Nayak (141233K), MCPO I—01.11.2003
Jabar Khan (141287H), MCPO I—01.11.2003
Rama Kant Pandey (200953N), MCPO I—01.05.2003
Anil Kumar (202676B), MCPO I—01.09.2003
Birendra Kumar Rai (203558H), MCPO I—01.12.2003
Narendra Singh (203764A), MCPO I—01.10.2003
Kuldeep Singh Verma (203981W), MCPO I—01.09.2003

- Abdul Wahib (204043K), MCPO I—01.11.2003
 Nizamuddin (204101T), MCPO I—01.11.2003
 P Murali Mohanan (204236Z), MCPO I—01.11.2003
 Kaushal Kumar Kiran (204253N), MCPO I—01.10.2003
 Guman Singh (204308N), MCPO I—01.11.2003
 Jagmohan Singh (204316F), MCPO I—01.11.2003
 Ram Paul Khajuria (108418F), MCPO MAI—01.04.2003
 Om Prakash (142270T), , MCPO MAI—01.04.2003
 Bhagwat Singh Yadav (142598N), MCPO MAI—01.04.2003
 Pradipkumar Shrivastav (142743T), MCPO MAI—01.04.2003
 Kashi Nath Yadav (143086Y), MCPO MAI—01.04.2003
 Raj Narayan Singh (107637F), MCPORTAC I—01.11.2003
 Ajit Singh (201597A), MCPORTEI I—01.04.2003
 Jagdish Prasad (202051H), MCPORTEI I—01.04.2003
 Udai Narayan Pandey (140909Z), MCA (AH) I—01.04.2003
 Vijay Shanker Singh (107628K), MCA (SE) I—01.09.2003
 Jagpal Singh (107785T), MCA (SE) I—01.09.2003
 Kuldeep Singh (141297F), MCA (MET) I—01.10.2003
 Raj Kumar Singh (106508R), MSCPO I—01.04.2003
 Mohinder Singh Khyalia (108849K), MSCPO I—01.04.2003
 Tilak Raj (108858F), MSCPO I—01.04.2003
 Abdul Qasim Khan (142925F), MSCPO I—01.04.2003
 Fahim Ullah Khan (142965Y), MSCPO I—01.05.2003
 Dharam Prakash (143461Z), MSCPO I—01.04.2003
 Suresh Singh (107814H), MCPO WTR I—01.04.2003
 Ram Khilari Sharma (108361A), MCPO WTR I—01.04.2003
 Ram Bihari Pandey (109325T), MCPO WTR I—01.09.2003
 Shree Krishan (141086A), MCPO WTR I—01.04.2003
 Ramayan Singh (141178K), MCPO WTR I—01.04.2003
 Ramesh Chand Yadav (141561F), MCPO WTR I—01.04.2003
 Kartar Singh (143462A), MCPO WTR I—01.04.2003
 Narayan Chandra (106307H), MCPO CK(O) I—01.10.2003
 Chinnaiah Karunanithi (140256R), , MCPO CK(S) I—01.05.2003
 Lakshmanje Giri (105854B), MCPO STD I—01.04.2003
 Munishwar (105982W), MCPO STD I—01.08.2003
 Virendra Singh (105984Z), MCPO STD I—01.11.2003
 Vijay Kumar (055881B), MCPO TOP I—01.04.2003
 Kuruppassery Chacko (055897R), MCPO TOP I—01.04.2003
 Sokkara Karuppiyah (055939K), MCPO TOP I—01.04.2003
 Joshua Gananadas (188029R), MCPO MUS I—01.04.2003
 Bhanu Pratap Singh (141618K), MC AT ARMS I—01.04.2003
 George John (204085F), MC AT ARMS I—01.11.2003
 Balwant Singh Kaushal (204202Y), MC AT ARMS I—01.10.2003
 Surander Prasad (106774W), MCPORSPL I—01.07.2003
 Suresh Prasad Tripathy (107877A), MCPORSPL I—01.11.2003
 Awadh Nath Ram (107880H), MCPORSPL I—01.10.2003
 Birendra Pal Singh (107455T), MC ELA I—01.04.2003
 Chandranjit Singh (110972K), MC ELA I—01.04.2003
 Swapan Kumar Saha (142080K), MC ELA I—01.04.2003
 Ajit Singh (141253F), MC ELAR I—01.04.2003
 Netra Pal Singh (141458Y), MC ELAR I—01.04.2003
 Jagdish Chand S Rana (142267K), MC ELAR I—01.12.2003
 Dharendra Kumar Sharma (107453N), MCPO AF I—01.11.2003
 Malkit Singh (143175Z), MCPO AF I—01.08.2003
 Ashok Kumar Singh (203781R), MCPO AF I—01.08.2003
 Subhash Singh Salaria (141985W), MCPO AOF I—01.06.2003
 Sanwat Singh Bika (109481Y), MC ELR I—01.08.2003
 Bhubneshwar Jha (110107W), MC ELR I—01.04.2003
 Sube Singh (110292R), MC ELR I—01.08.2003
 Valsan C (144167B), MC ELR I—01.04.2003
 Ram Ruchi Shukla (144530B), MC ELR I—01.04.2003
 Shambhu Sharma Sahani (146715W), MC ELR I—01.06.2003

- Rani Bahu Prasad (105307K), MC ME I—01.05.2003
- Munir (107454R), MC ME I—01.04.2003
- Romesh Kumar (110236N), MC ME I—01.04.2003
- Ashok Kumar Singh (110480T), MC ME I—01.04.2003
- Sital Singh Pal (200378F), MC ME I—01.04.2003
- Raj Pal Singh (201631B), MC ME I—01.04.2003
- Alfazul Rahman (201674A), MC ME I—01.04.2003
- Vullingala C Naidu (202607Y), MC ME I—01.04.2003
- Amar Singh Tomar (187180K), MC ERA I—01.04.2003
- Ravi Kumar P (187327W), MC ERA I—01.04.2003
- Kalash Chand (187333H), MC ERA I—01.04.2003
- K Digambereshwar (187522N), MC ERA I—01.10.2003
- M Sridhar (187524T), MC ERA I—01.08.2003
- Emtyaj Husen Idrisi (187569W), MC ERA I—01.11.2003
- Chapala Raju (187572A), MC ERA I—01.08.2003
- K Vinayacamurugan (187578R), MC ERA I—01.10.2003
- Jadhav N Dattatray (191400A), MC ERA I—01.04.2003
- Ravindra D Bhosale (191704T), MC ERA I—01.08.2003
- Bhagawan Singh (191746N), MC ERA I—01.04.2003
- Lokesh Kumar (191772Y), MC ERA I—01.05.2003
- Pradeep Kumar Singh (191777H), MC ERA I—01.10.2003
- Kadam Abasaheb Dnyanu (108280T), MC MECH I—01.08.2003
- Awatar Singh (187379N), MC EAP I—01.04.2003
- Dilip KG Bhojwani (187442F), MC EAP I—01.04.2003
- D Murugan (187558W), MC EAP I—01.04.2003
- Sunny MA (187559Y), MC EAP I—01.04.2003
- Rajendra Prasad (187561A), MC EAP I—01.04.2003
- Dukhabandhu Nayak (191184K), MC EAP I—01.04.2003
- Anrit Kumar Rai (191290A), MC EAP I—01.04.2003
- Atul Kumar Srivastava (191324B), MC EAP I—01.04.2003
- Berad Balkrisna Namdeo (192381F), MC EAP I—01.04.2003
- Keshri Nandan Singh (197154B), MC EAP I—01.10.2003
- Naresh Chandra Singh (109962R), MC MECH P I—01.04.2003
- Z Ali (109963T), MC MECH P I—01.04.2003
- Birendra Bhowmick (110483Z), MC MECH P I—01.04.2003
- Paramananda Choudhury (110764N), MC MECH P I—01.04.2003
- Lakshman Singh (110902A), MC MECH P I—01.04.2003
- Mahender Kumar Yadav (111079B), MC MECH P I—01.04.2003
- Kushla Nand Dimri (146185R), MC MECH P I—01.04.2003
- Bhaghirat Singh Jodha (146766K), MC MECH P I—01.04.2003
- Tej Singh Chauhan (147011T), MC MECH P I—01.04.2003
- Ashok Kumar Nandy (147316K), MC MECH P I—01.04.2003
- Sushil Kumar (147980W), MC MECH P I—01.04.2003
- Ranjeet Singh (149089R), MC MECH P I—01.04.2003
- Sundar Pal Singh (187652H), MCEAR I—01.04.2003
- Surya Bhan Singh (191490F), MCEAR I—01.04.2003
- Lautoo Ram (191656H), MCEAR I—01.04.2003
- Ram Bilas Singh Yadav (191868R), MCEAR I—01.10.2003
- Binod Kumar (192014Y), MCEAR I—01.11.2003
- Anant Prakash Mishra (144953R), MC MECH R I—01.09.2004
- Shiv Nath Singh (146220W), MC MECH R I—01.04.2003
- Roshan Lal (187593Z), MC AA I—01.04.2003
- S Kumaraswamy (187596F), MC AA I—01.10.2003
- Patil Nivrutti Krishnr (187600R), MC AA I—01.06.2003
- Goluguri Adi Reddy (187641H), MC AA I—01.04.2003
- B Srinivasa Rao (187642K), MC AA I—01.04.2003
- Chindarmony KD (187535T), MC AA(W) I—01.04.2003
- Bhajan Kumar Dev (187605A), MC AA(W) I—01.04.2003
- Pawar Ashok Namdeo (107923F), MC MECH(AL) I—01.04.2003
- Sawalia Singh (110662F), MC MECH(AL) I—01.04.2003
- Subodh Chandra Paul (112056Z), MC MECH(AL) I—01.04.2003
- VK Jude (187653K), MC EAAR I—01.04.2003
- Pratap Narayan Tiwari (191470K), MC EAAR I—01.04.2003
- Kadam Vishuvambhar (191628W), MC EAAR I—01.04.2003

MD Serajuddin Ansari (191669N), MC EAAR I—
01.04.2003

RNS Kushawaha (191829A), MC EAAR I—01.04.2003

Taufiq Ali (192237B), MC EAAR I—01.09.2003

MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS II

Ayub Ali Gazi (1110003H), MCPO II—01.04.2003

Azad Kumar (111632K), MCPO II—01.04.2003

Yedla Demudu (111835Y), MCPO II—01.08.2003

Banshi Dhar (111933W), MCPO II—01.04.2003

Rajinder Kumar (112173R), MCPO II—01.10.2003

Munna Ram (112466F), MCPO II—01.10.2003

Kuldip Chand Katoch (112555H), MCPO II—01.04.2003

Gajender Singh (112755N), MCPO II—01.04.2003

Suresh Kumar (112911T), MCPO II—01.10.2003

Dilbag Singh (113054T), MCPO II—01.10.2003

Ramesh Kumar (113325H), MCPO II—01.11.2003

S Thirupathi (113429W), MCPO II—01.08.2003

Surinder Singh Yadav (113468H), MCPO II—01.05.2003

Sunil Jijaba More (113686H), MCPO II—01.11.2003

Regi Kuriakose (114055T), MCPO II—01.09.2003

Bishnu Nag (148086K), MCPO II—01.04.2003

Mahesh Chandra (148977K), MCPO II—01.04.2003

Laxman Singh Negi (149252K), MCPO II—01.09.2003

Paras Nath Rai (149285K), MCPO II—01.04.2003

Gyandeo Singh (149294F), MCPO II—01.05.2003

Pitabas Sasmal (149365T), MCPO II—01.11.2003

Sher Bahadur (149521Y), MCPO II—01.11.2003

K Chandra Kushwaha (149533Z), MCPO II—01.11.2003

Devki Nandan (149564W), MCPO II—01.10.2003

Ramesh Chandra (149631Y), MCPO II—01.07.2003

MJ Mani (149776A), MCPO II—01.05.2003

Chandrabali Yadav (149801H), MCPO II—01.04.2003

Vishal Singh (149880N), MCPO II—01.04.2003

Chandra Shekhar (149929Z), MCPO II—01.08.2003

Keshar Prasad Mishra (149934K), MCPO II—01.11.2003

Narman Dhanukey (160072A), MCPO II—01.11.2003

Arun Dobhal (160409T), MCPO II—01.11.2003

Roop Singh (160580F), MCPO II—01.06.2003

Nand Lal (160614H), MCPO II—01.04.2003

CV Santhosh Kumar (160687Z), MCPO MA II—

01.04.2003

Prasanna Kumar Kar (160994Y), MCPO MA II—
01.09.2003

Harsh Mani (161298N), MCPO MA II—01.04.2003

Ratheesh K Kunjappan (172609W), MCPO MA II—
01.04.2003

Jeet Singh (174025N), MCPO MA II—09.03.2003

Bhanwar Lal (110877W), MCPO MA II—01.04.2003

Ramesh Kumar (111082K), MCPO MA II—01.04.2003

Bharat Singh (111602T), MCPO MA II—01.04.2003

Sahab Singh (111960F), MCPO MA II—01.04.2003

Guleshwar Prasad Sah (146875H), MCPO MA II—
01.04.2003

Arun Kumar Choudhary (147386W), MCPO MA II—
01.04.2003

Pooranmal Yadav (147400A), MCPO MA II—01.04.2003

Deena Nath Prasad (147700), MCPO MA II—01.04.2003

Udaya Kumar (147769R), MCPO MA II—01.04.2003

Ravindra Kumar (147966N), MCPO MA II—01.04.2003

Jai Bhagwan (148289Y), MCPO MA II—01.04.2003

Ram Iqbal Singh (148459H), MCPO MA II—01.04.2003

Shib Nath Das (110654N), MCPORTAC II—01.04.2003

Rajpal Singh (111272T), MCPORTAC II—01.04.2003

Mahesh Babu (111583Z), MCPORTAC II—01.04.2003

Ash Narain Singh (112190B), MCPORTAC II—
01.04.2003

Udaiveer Singh (112959A), MCPORTAC II—01.11.2003

Prem Pal (149573R), MCPORTAC II—01.11.2003

Anil Kumar Rai (111245F), MCPORTEI II—01.04.2003

PO Benny (111927F), MCPORTEI II—01.09.2003

Santosh Kumar (113372R), MCPORTEI II—01.05.2003

Ram Chander (113566F), MCPORTEI II—01.10.2003

Mithilesh Jha (144369N), MCPORTEI II—01.04.2003

Gedela Ramamurty (147384R), MCPORTEI II—
01.04.2003

Raj Kishore Jha (147549R), MCPORTEI II—01.04.2003

Uma Shankar Mishra (148152K), MCPORTEI II—
01.04.2003

Gopinath Mishra (148226B), MCPORTEI II—
01.04.2003

Arun Kumar Mishra (160758K), MCPORTEI II—
01.06.2003

Bichitra Kumar Panda (110875R), MCA(AH) II— 01.04.2003	Surinder Pal (105901K), MCPO CK(S) II—01.04.2003
Satbir Singh (111054Y), MCA(AH) II—01.04.2003	Dev Nath Ram (107247W), MCPO CK(S) II— 01.11.2003
Raj Kumar (112774F), MCA(AH) II—01.10.2003	Sadanandan Malayil (145217R), MCPO STD II— 01.11.2003
Balkar Singh (149673T), MCA(AH) II—01.09.2003	Tajbar Singh (145231Y), MCPO STD II—01.08.2003
Awdhesh Kumar Singh (160369A), MCA(AH) II— 01.12.2003	Dharmraj Wilson (152766Y), MCPO STD II— 01.04.2003
Jai Prakash Sharma (111126K), MSCPO II—01.04.2003	Km Kunhi Mohamed (107753W), MCPO TOP II— 01.11.2003
Gopa Ram Machra (111157F), MSCPO II—01.04.2003	Oa thomas (107810Z), MCPO TOP II—01.11.2003
Manohar Singh (111168F), MSCPO II—01.04.2003	Vanny Muthu (108013K), MCPO TOP II—01.11.2003
Santosh Kumar (111302K), MSCPO II—01.04.2003	Jappachath Krishnan (152347W), MCPO TOP II— 01.08.2003
Ganapathi KC (111483Y), MSCPO II—01.04.2003	Israel John (188038K), MCPO MUS II—01.04.2003
Ram Pratap Tripathi (111687K), MSCPO II—01.04.2003	V Gurusamy (188170K), MCPO MUS II—01.04.2003
Nandan Singh Rawat (111714Y), MSCPO II— 01.05.2003	Narendranath KP (188261T), MCPO MUS II— 01.04.2003
Rura Ram Yadav (147348H), MSCPO II—01.04.2003	Pradeep Kumar (111365B), MC AT ARMS II— 01.04.2003
Nareesh Kumar (147484T), MSCPO II—01.12.2003	Rashpal Singh (141865Y), MC AT ARMS II— 01.04.2003
Rakesh Kumar Joshi (147499A), MSCPO II—01.04.2003	Chaman Lal (143505Z), MC AT ARMS II—01.04.2003
Todkar Shamrao Janaba (112827A), MCPO WTR II— 01.04.2003	Satvir Singh (143610N), MC AT ARMS II—01.04.2003
Kishore Kumar Jha (112924Y), MCPO WTR II— 01.04.2003	Vijender Singh (143707H), MC AT ARMS II— 01.04.2003
Shankar Lal sharma (113493R), MCPO WTR II— 01.09.2003	Jagdev Singh (144314N), MC AT ARMS II—01.04.2003
Dharampal (149075H), MCPO WTR II—01.04.2003	Akhileshwar Prasad (144808K), MC AT ARMS II— 01.04.2003
Chandan Singh Dangi (149424A), MCPO WTR II— 01.04.2003	Bikram Singh Chauhan (146628Y), MC AT ARMS II— 01.04.2003
Ravikant Pandey (149511Z), MCPO WTR II— 01.04.2003	Bharat Singh (146758T), MC AT ARMS II—01.04.2003
Munishwer Verma (149816T), MCPO WTR II— 01.04.2003	Charan Singh (146806A), MC AT ARMS II—01.04.2003
Kapil Dev (149836N), MCPO WTR II—01.04.2003	Pooran Singh (146850A), MC AT ARMS II—01.04.2003
Ghan Shyam Das (160221R), MCPO WTR II— 01.04.2003	Narendra Kumar Singh (146983B), MC AT ARMS II— 01.04.2003
Mahinder Kumar (160235Y), MCPO WTR II— 01.04.2003	Sunder Lal (149139B), MC AT ARMS II—01.04.2003
Srinibash Mahapatra (160629T), MCPO WTR II— 01.04.2003	Satyavir Singh (110858A), MCPO RSPL II—01.04.2003
Deep Narayan (161274H), MCPO WTR II—01.04.2003	Krishna Kumar Singh (160503F), MCPO RSPL II— 01.07.2003
Jyothi Malakonda Rao (107323T), MCPO CK (O) II— 01.10.2003	Y Ramprasad Dattatray (112790T), MC ELAR II— 01.04.2003
Rajeshwar Prasad (104635H), MCPO CK(S) II— 01.04.2003	Anil Kumar (114602K), MC ELAR II—01.04.2003
Ahibran Singh (104749T), MCPO CK(S) II— 01.04.2003	Lallu Singh (162720W), MC ELAR II—09.07.2003

Jacob Samuel (163668Z), MC ELAR II—01.11.2003	01.04.2003
Mohammad Aqeel (161174F), MCPO AF II—01.04.2003	Rakesh Kumar Yadav (167057A), MC ERA II—01.11.2003
C Marichamy (161985F), MCPO AF II—01.08.2003	Santosh Bahadur Singh (167063R), MC ERA II—01.08.2003
Din Dayal Maurya (162664T), MCPO AF II—01.08.2003	Yashbir Singh (167401H), MC ERA II—01.11.2003
K Kishor Choudhary (162901F), MCPO AF II—01.04.2003	Arat Malik (167651A), MC ERA II—01.04.2003
Satbir Singh Chauhan (164389N), MCPO AF II—01.11.2003	Dibakar Pradhan (167713T), MC ERA II—01.04.2003
Rajbir (164149T), MCPO AOF II—01.06.2003	Vishnu Kumar Chauhan (167804Z), MC ERA II—01.04.2003
Ramesh Kumar (113929F), MC ELP II—01.04.2003	Amiya Kumar Hotta (193081Y), MC ERA II—01.04.2003
Pratipal (149675Y), MC ELP II—01.04.2003	Satnam Singh Ghotra (193085F), MC ERA II—01.04.2003
Sudish Kumar (161393B), MC ELP II—01.04.2003	Sunil Kumar Tiwary (193098K), MC ERA II—01.04.2003
S R C Satrusalya (161428H), MC ELP II—01.04.2003	Birender Singh Negi (193117B), MC ERA II—01.04.2003
Narinder Singh (161577Y), MC ELP II—01.04.2003	Sanjeev Kumar (193157W), MC ERA II—01.04.2003
Bhajurama Yadava (162351F), MC ELP II—01.04.2003	Rajesh Kumar Sharma (193159Z), MC ERA II—01.04.2003
Shaik M Subani (163079K), MC ELP II—01.04.2003	Deepak Bafila (193161B), MC ERA II—01.04.2003
Jai Prakash (113707A), MC ELR II—01.04.2003	Prabhunath Rai (193162F), MC ERA II—01.04.2003
Naresh Kumar (113709F), MC ELR II—01.04.2003	Binay Kumar (193169Y), MC ERA II—01.04.2003
Rajender Singh (114044T), MC ELR II—01.04.2003	Surendra Prasad (193170Z), MC ERA II—01.04.2003
Shiv Naresh (161624B), MC ELR II—01.06.2003	Surendra Singh Chauhan (193178T), MC ERA II—01.04.2003
Om Prakash Singh Yadav (162195A), MC ELR II—01.04.2003	Dev Raj (193183B), MC ERA II—01.04.2003
Shashidhar Mishra (162449B), MC ELR II—01.08.2003	Suneel Parkash Arya (193184F), MC ERA II—01.04.2003
Viswanathan TA (162515B), MC ELR II—01.08.2003	Umesh Kumar Sharma (193202Y), MC ERA II—01.04.2003
Subhash Chandra Bhatt (111936A), MC ME II—01.04.2003	Debasisa Mahapatra (193216B), MC ERA II—01.04.2003
Desh Raj (112265Z), MC ME II—01.04.2003	Samir Kumar Mishra (193217F), MC ERA II—01.04.2003
Ram Yash Garg (112544H), MC ME II—01.04.2003	Katkar S Bhagwan (193224Y), MC ERA II—01.04.2003
Ishwar N Dakhore (113449R), MC ME II—01.04.2003	Kamble Kishore Bapu (193227B), MC ERA II—01.04.2003
Iqbal (146203F), MC ME II—01.04.2003	Shashikant R Kholam (193229H), MC ERA II—01.04.2003
Vikram Singh Rawat (148708Z), MC ME II—01.04.2003	Pankaj Sharma (193236Z), MC ERA II—01.04.2003
Rajender Singh (149008F), MC ME II—01.05.2003	Shamim Khan (193240H), MC ERA II—01.04.2003
Mihir Kumar De (160049Z), MC ME II—01.04.2003	
Lalji Yadav (161531T), MC ME II—01.04.2003	
Jung Bahadur Singh (163072W), MC ME II—01.10.2003	
Dal Singh (163221H), MC ME II—01.05.2003	
Philip Kuriakose (166472Y), MC ERA II—01.10.2003	
Umesh C Vishwakarma (166652F), MC ERA II—	

Om Parkesh Sheoran (193246Y), MC ERA II—
01.04.2003

Raj Kumar (193249B), MC ERA II—01.04.2003

Ajay Kumar (193251H), MC ERA II—14.10.2003

Subash Chander (193259A), MC ERA II—01.04.2003

Ashok Jolly (193260B), MC ERA II—01.04.2003

Sunil Kumar Singh (193261F), MC ERA II—
01.04.2003

Manish Raina (193263K), MC ERA II—01.04.2003

Raj Kumar (193267W), MC ERA II—01.04.2003

Parveen Kumar Saklani (193268Y), MC ERA II—
01.04.2003

Jagdale G Jayashing (193270A), MC ERA II—
01.04.2003

PA Thomas (193272F), MC ERA II—01.04.2003

Naik Manoj Suryakant (193274K), MC ERA II—
01.04.2003

Kadam S Vyankat Rao (193278W), MC ERA II—
01.04.2003

Azadi Sah (193288T), MC ERA II—01.04.2003

Pritam Singh (193289W), MC ERA II—01.04.2003

Shaikh S Chandbhai (193290Y), MC ERA II—
01.04.2003

Subhash Chander (193291Z), MC ERA II—01.04.2003

Deotarse R Ramdas (193292A), MC ERA II—
01.04.2003

Vijay Singh (193297N), MC ERA II—01.04.2003

Shashi Shekhar Dubey (193300W), MC ERA II—
01.04.2003

Bhagaban Biswal (193309R), MC ERA II—01.04.2003

Ravinder Kumar (193312Y), MC ERA II—01.04.2003

Pritam Singh (193313Z), MC ERA II—01.04.2003

Arvind Singh Rawat (193316F), MC ERA II—
01.04.2003

Sharma J Liladhar (193322W), MC ERA II—
01.04.2003

Anil Kumar (193327F), MC ERA II—01.04.2003

Ajeet Kumar Chaubey (193330K), MC ERA II—
01.05.2003

Manoj Kumar (193339H), MC ERA II—01.04.2003

Tapan Kumar Sahoo (193346Z), MC ERA II—
01.04.2003

Nirmaljit Singh (193348B), MC ERA II—01.08.2003

Bikram Singh (193352N), MC ERA II—01.11.2003

Deepak Bangale (193355W), MC ERA II—01.04.2003

Narotam Kumar Sharma (193356Y), MC ERA II—
01.04.2003

Sangle R Vishwanath (193361H), MC ERA II—
01.04.2003

Manoj Kumar Tiwari (193363N), MC ERA II—
01.10.2003

Narender Singh (193364R), MC ERA II—01.04.2003

Betha Ravi Prakash (193366W), MC ERA II—
01.04.2003

Sanjay Kumar B Adsul (193374N), MC ERA II—
01.10.2003

Patil Pratap Shamrao (193375R), MC ERA II—
01.04.2003

Kadam B Parabati (193377W), MC ERA II—01.04.2003

Devender Singh Yadav (193378Y), MC ERA II—
01.04.2003

Ramasray Yadava (193382F), MC ERA II—01.09.2003

Vineeth K Jose (193390Z), MC ERA II—01.11.2003

Santosh Kumar (109681A), MC MECH II—01.04.2003

Gyan Chand Prasad (111099Z), MC MECH II—
01.04.2003

Jaimon Chacko (112341Y), MC MECH II—01.04.2003

Narsi Ram Sharma (112343A), MC MECH II—
01.04.2003

Ujjawal Kumar Saha (112463Z), MC MECH II—
01.04.2003

Kana Ram Khedar (113576B), MC MECH II—
01.11.2003

Krishna Pal (146109T), MC MECH II—01.04.2003

Rajender Singh Rathi (148147Z), MC MECH II—
01.04.2003

Bijender Singh (148270B), MC MECH II—01.04.2003

Baldev Raj (148856K), MC MECH II—01.04.2003

Nitya Nand (148887F), MC MECH II—01.04.2003

Narayan Datt Pandey (149423Z), MC MECH II—
01.04.2003

Salig Ram (149873Y), MC MECH II—01.04.2003

Shanker Singh Rawat (160593K), MC MECH II—
01.04.2003

Arun Kumar Singh (161034N), MC MECH II—
01.06.2003

Santanu Adhikari (161676Y), MC MECH II—
01.11.2003

Shekhara Nand (162258W), MC MECH II—01.06.2003
 Suresh Dutta (168145Z), MC EAP II—01.04.2003
 Navin Kumar (168424H), MC EAP II—01.04.2003
 Prasantha Kumar T (169157Z), MC EAP II—01.04.2003
 Hemant Selokar (171372H), MC EAP II—01.04.2003
 Randhir Singh (171415F), MC EAP II—01.10.2003
 Subrahmanaya Nayak A (171883W), MC EAP II—01.04.2003
 Ajit Kumar (172695R), MC EAP II—01.04.2003
 Kiran Kumar Giri (197547Y), MC EAP II—01.04.2003
 Pramod Kumar (197564K), MC EAP II—01.04.2003
 M D Istyque (197593A), MC EAP II—01.04.2003
 Sunil Kumar Dhaka (197604A), MC EAP II—01.04.2003
 Somnath Dhal (197605B), MC EAP II—01.04.2003
 Akhilesh Singh (197639F), MC EAP II—01.04.2003
 Bhupender Singh (197647Z), MC EAP II—01.04.2003
 Vijay Pal Singh (197663K), MC EAP II—01.04.2003
 Ashok Kumar (114142R), MC MECH P II—01.04.2003
 Satyavir Singh (161075F), MC MECH P II—01.04.2003
 Ajit Singh (161364N), MC MECH P II—01.04.2003
 Abdul Gaffar (162203W), MC MECH P II—01.11.2003
 Manoranjan Kuanar (197374B), MCEAR II—01.04.2003
 Chiranji Lal (197438Z), MCEAR II—01.04.2003
 Bajrang Bahadur Singh (197449Z), MCEAR II—01.04.2003
 Tushar Singh (197464H), MCEAR II—01.04.2003
 P J Johnson (197472A), MCEAR II—01.04.2003
 Naga B Saravana Kumar (197487K), MCEAR II—01.04.2003
 K Ramesh (197488N), MCEAR II—01.04.2003
 R Rajeev Kumar (197489R), MCEAR II—01.04.2003
 Rehan J Shaikh (197498K), MCEAR II—01.04.2003
 Amrik Singh (197500R), MCEAR II—01.04.2003
 Pramod Singh Naresh (197504Z), MCEAR II—01.04.2003
 Brij Mohan Dadwal (197506B), MCEAR II—01.04.2003
 Prakash Laxman M (197518F), MCEAR II—01.04.2003
 Yusuf K K (197522R), MCEAR II—01.04.2003
 Narinder Kumar (197525Y), MCEAR II—01.04.2003
 Sudheedran (197529F), MCEAR II—01.04.2003

Santosh John (197542K), MCEAR II—01.04.2003
 Rajesh G Joshinge (197543N), MCEAR II—01.04.2003
 Kanase Samir Ulhas (197546W), MCEAR II—01.04.2003
 Yuvaraju K (197556T), MCEAR II—01.04.2003
 Sanjeev Kumar (197557W), MCEAR II—01.04.2003
 Ram Kumar Giri (197559Z), MCEAR II—01.04.2003
 Manjeet Singh (197573F), MCEAR II—01.04.2003
 Venkatappaiah N (197578T), MCEAR II—01.04.2003
 Bijay Kumar Tripathy (197607H), MCEAR II—01.04.2003
 Ramesh Chandra (197614Z), MCEAR II—01.04.2003
 Subhajit Sinha (197620N), MCEAR II—01.09.2003
 Yogesh Singh (197622T), MCEAR II—01.10.2003
 Manoj Kumar R (197626A), MCEAR II—01.04.2003
 Sanjiv Kumar Singh (197631N), MCEAR II—01.04.2003
 Amar Saxena (197635Y), MCEAR II—01.04.2003
 Manash Bhowmick (197636Z), MCEAR II—01.11.2003
 Samarjit Baliar Singh (197640H), MCEAR II—01.04.2003
 Manoj Kumar Biswal (197676R), MCEAR II—01.11.2003
 Jashbir Singh Saini (193186K), MC SWA II—01.04.2003
 Dildar Singh (193188R), MC SWA II—01.04.2003
 Karam Singh (193191Y), MC SWA II—01.04.2003
 Alkesh Kumar Tyagi (193200T), MC SWA II—01.04.2003
 Ramesh Kumar (193201W), MC SWA II—01.04.2003
 Sridhar Mohanty (193232R), MC SWA II—01.04.2003
 Saroj Kumar Tripathy (193235Y), MC SWA II—01.04.2003
 Rakesh Singh Pathania (193255T), MC SWA II—01.04.2003
 Rajesh Kumar GS (193275N), MC SWA II—01.11.2003
 KP Nikil (193276R), MC SWA II—01.04.2003
 Paila Syamasundar (193284H), MC SWA II—01.04.2003
 Wagh Hitendra Motiram (193299T), MC SWA II—01.04.2003
 Sanjeev Kumar Rana (193301Y), MC SWA II—01.04.2003
 Ashim De Chowdhury (193308N), MC SWA II—01.05.2003

Virendra Kumar Shukla (193317H), MC SWA II—01.04.2003

Naveen Bakshi (193336A), MC SWA II—01.11.2003

Bhutare R Suryabhan (193372H), MC SWA II—01.04.2003

Mukesh Kumar (193421W), MC SWA II—01.11.2003

Anil Kumar (193050A), MC AA II—01.04.2003

Arun Kumar Singh (193060Z), MC AA II—01.04.2003

George Mathew (193072A), MC AA II—01.04.2003

Suraj Bhan Verma (193088N), MC AA II—01.04.2003

Gautam Basu (193091W), MC AA II—01.04.2003

Kainikara Prasad (193108H), MC AA II—01.04.2003

Gitam Singh Solanki (193118F), MC AA II—01.04.2003

Rajesh K Govindan (193135W), MC AA II—01.04.2003

TM Benny (193151F), MC AA II—01.04.2003

Santosh Singh Negi (193172B), MC AA II—01.04.2003

Manjaly Rapheal Paul (193206F), MC AA II—01.04.2003

E Santhosh Paul (193239F), MC AA II—01.04.2003

Ashok Rana (193264N), MC AA II—01.10.2003

Jose Titus (193271B), MC AA II—01.11.2003

PN Santhosh (193294F), MC AA II—01.04.2003

Dhairi Sheel Yadav (193315B), MC AA II—01.11.2003

Arun Kumar Trivedi (193318K), MC AA II—01.04.2003

Om Veer (193210R), MC AA II—01.04.2003

Dharamvir Singh (160639R), MC AM II—01.04.2003

Jyoti Swaroop Awasthi (163677W), MC AM II—01.04.2003

Susanta Biswas (192856K), MC AA(W) II—01.04.2003

Ashok Kumar (192863A), MC AA(W) II—01.04.2003

Surdeep Kumar Trivedi (193078R), MC AA(W) II—01.11.2003

Ram Niwas (163577T), MC AM(W) II—01.04.2003

Balaga Jeevaratnam (164098A), MC AM II—01.04.2003

K Suresh Chandran (197331F), MCEAA II—01.04.2003

Premjit Kumar Shah (197371Y), MCEAA II—01.04.2003

Pradeep Kumar Thakur (197389N), MC EAA II—01.04.2003

Surinder Singh (197393Y), MC EAA II—01.04.2003

K Sujaibabu (197409H), MC EAA II—01.04.2003

Kishor Kumar Aswal (197418B), MC EAA II—01.11.2003

Anil Kumar Sharda (197424T), MC EAA II—01.04.2003

Sanjeeb Jha (197446T), MC EAA II—01.04.2003

Vipin Raj Punia (197477N), MC EAA II—01.12.2003

S Prasad Mishra (163876Y), MC MECH (AL) II—01.04.2003

Bijendra Kumar (163927N), MC MECH (AL) II—01.04.2003

Niranjan Kumar Sharma (164000B), MC MECH (AL) II—01.04.2003

Y Kumar Gupta (197370W), MCEAAR II—01.04.2003

G Bala Murugan (197380T), MCEAAR II—01.04.2003

Praveen Kumar (197400N), MC EAAR II—01.04.2003

Prem Anand (197457T), MC EAAR II—01.04.2003

Susheel Kumar (197459Y), MC EAAR II—01.09.2003

Parmod Kumar (197476K), MC EAAR II—01.11.2003

Virendra Pratap Singh (197478R), MC EAAR II—01.11.2003

Astick Konai (163254H), MC MECH (AR) II—01.09.2003

Shashi Paul (164125N), MC MECH (AR) II—01.04.2003

Pavithran Kuniyil (164835A), MC MECH (AR) II—01.04.2003

G.S. AUDHKHASI
Under Secy.

No. 363, dated the 07th July 2004.—The President is pleased to make the following appointment in the education branch of the Indian Navy for direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. OF/1401 dated 15 July 2003 from the date shown against the name:—

TO BE SUB LT (ON PROBATION)

DIRECT ENTRY SCHEME—EDUCATION BRANCH

Name, Personal Number, Type of Commission, & Date of Commission

Hegde Vijay Raghava (70470-H), PC—07 Jan 2002

Kishore Brij (70472-N), PC—07 Jan 2002

Das Biswarup (70473-R), PC—07 Jan 2002

KUMAR PARITOSH

Commander

JDMP (R&R)

Integrated HQ-MOD (Navy)

(AIR BRANCH)

No. 364, dated the 07th July 2004.—The President is pleased to grant ante-date of commission to the under

mentioned officers who were granted permanent commission on completion of their tenure of SSC with effect from the date shown against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/22258/PO-3(A)/474/DOIA/D(Air-III) dated 27th Mar 1985.

INDIAN AIR FORCE

AE (M) BRANCH

Flt Lt KP Bhatt (24145) wef 26 May 1995
 Flt Lt Pankaj Chawla (24427) wef 22 Nov 1995
 Flt Lt Rajesh Chandra (24436) wef 22 Nov 1995
 Flt Lt Rajesh Pangeijam (24438) wef 22 Nov 1995
 Flt Lt PVV Rao (24838) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt Biswajit Dey (24839) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt Arun Prabhakaran (24840) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt KN Ramesh (24853) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt Aijaz Faiyaz (24858) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt U Sathyan (24855) wef 22 Nov 1996

INDIAN AIR FORCE

AE (L) BRANCH

Flt Lt VD Ghorpade (23908) wef 26 Nov 1994
 Flt Lt M Purohit (23914) wef 26 Nov 1994
 Flt Lt Pankaj Sharma (24431) wef 22 Nov 1995
 Flt Lt Anil Aggarwal (24432) wef 22 Nov 1995
 Flt Lt Praveen Sharma (24433) wef 22 Nov 1995
 Flt Lt N Sajeev (24694) wef 23 May 1996
 Flt Lt PR Gupta (24696) wef 23 May 1996
 Flt Lt KA Rajan (24697) wef 23 May 1996
 Flt Lt M Guddad (24698) wef 23 May 1996
 Flt Lt P Gurbinder Singh (24705) wef 23 May 1996
 Flt Lt Ratnaker Deshmukh (24843) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt Ravi Shankar Yadav (24844) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt S Lamba (24845) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt Inderjit Singh Sahdev (25846) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt Rajnesh Gautam (24842) wef 22 Nov 1996
 Flt Lt Gurushant Karki (24851) wef 22 Nov 1996

The President is pleased to grant permanent commission to the under mentioned officers on completion of their tenure of SSC with effect from the date shown against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/22258/PO-3(A)/474/DOIA/D(Air-III) dated 27 Mar 1985:—

INDIAN AIR FORCE

AE (M) BRANCH

Flt Lt KP Bhatt (24145) wef 27 May 2002
 Flt Lt Pankaj Chawla (24427) wef 26 Nov 2002
 Flt Lt Rajesh Chandra (24436) wef 03 Dec 2002
 Flt Lt Rajesh Pangeijam (24438) wef 09 Dec 2002
 Flt Lt PVV Rao (24838) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt Biswajit Dey (24839) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt Arun Prabhakaran (24840) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt KN Ramesh (24853) wef 01 Dec 2003
 Flt Lt Aijaz Faiyaz (24858) wef 12 Dec 2003
 Flt Lt U Sathyan (24855) wef 10 Dec 2003

INDIAN AIR FORCE

AE (L) BRANCH

Flt Lt VD Ghorpade (23908) wef 27 Nov 2001
 Flt Lt M Purohit (23914) wef 18 Dec 2001
 Flt Lt Pankaj Sharma (24431) wef 26 Nov 2002
 Flt Lt Anil Aggarwal (24432) wef 26 Nov 2002
 Flt Lt Praveen Sharma (24433) wef 26 Nov 2002
 Flt Lt N Sajeev (24694) wef 26 May 2003
 Flt Lt PR Gupta (24696) wef 26 May 2003
 Flt Lt KA Rajan (24697) wef 26 May 2003
 Flt Lt M Guddad (24698) wef 26 May 2003
 Flt Lt P Gurbinder Singh (24705) wef 27 May 2003
 Flt Lt Ratnaker Deshmukh (24843) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt Ravi Shankar Yadav (24844) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt S Lamba (24845) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt Inderjit Singh Sahdev (25846) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt Rajnesh Gautam (24842) wef 24 Nov 2003
 Flt Lt Gurushant Karki (24851) wef 24 Nov 2003

S SRIVASTAV
 Sqn Ldr
 DDPO-3 (D)

(ARMY BRANCH)

No. 365, dated the 01st July 2004.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Harka Bahadur Pun (JC-129314Y),
 Formerly 58 Gorkha Rifles—03 Oct 2001

Subedar Major Charnjit Singh (JC-174596P), Formerly BEG (K)—13 Oct 2002

Subedar Major Bans Ropan Ojha (JC-181280L), Formerly Signals—02 Jan 2003

In the rank of Subedar (GD)

Subedar Ram Singh Gurung (JC-160847H), Formerly Mech Inf—05 Oct 2001

Subedar Kashmir Singh (JC-217948X), Formerly Bde of Guards—03 Jan 2002

Subedar Sudama Singh (JC-205042A), Formerly Para Regt—02 Jan 2003

Subedar Tara Datt Kandpal (JC-235977P), Formerly Armd Corps—02 Jan 2003

Subedar Neta Jawahar Singh (JC-212915H), Formerly Garhwal Rifles—02 Jan 2003

Subedar Jai Prakash Naithani (JC-212919Y), Formerly Garhwal Rifles—02 Jan 2003

Subedar Jagir Singh (JC-193243K), Formerly ASC (Sup)—03 Jan 2003

Subedar Sonam Dawa (JC-221079N), Formerly Ladakh Scouts—03 Jan 2003

Subedar R Ayyanar (JC-170521A), Formerly BEG(R)—07 Jan 2003

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Jeewan Kumar (JC-419108A), Formerly Mech Inf—02 Jul 2001

Naib Subedar Saman Singh (JC-146787H), Formerly Indian Navy—02 Oct 2001

Naib Subedar Jagdish Prasad (JC-143671A), Formerly Indian Navy—04 Jan 2002

Naib Subedar Simon 'D' Cruz (JC-226940M), Formerly Mech Inf—18 Apr 2002

Naib Subedar Devi Datt Tewari (JC-178056N), Formerly Kumaon Regt—07 Jul 2002

Naib Subedar Abal Singh (JC-528292M), Formerly Garhwal Rifles—02 Jan 2003

Naib Subedar Hoshiar Singh (JC-578263N), Formerly JAK Rif—02 Jan 2003

Naib Subedar Suleman (JC-208306F), Formerly Grenadiers—04 Jan 2003

In the rank of Subedar (GD)

Subedar Devki Nanden (JC-170816W), Formerly EME—05 Jan 2002

Subedar Dhurba Pradhan (JC-164862P), Formerly 11 Gorkha Rifles—04 Jul 2002

Subedar Sham Lal (JC-162230L), Formerly JAK LI—06 Jul 2002

Subedar Ibrahim (JC-157282X), Formerly Grenadiers—13 Oct 2002

Subedar Sham Lal (JC-218363W), Formerly JAK Rif—02 Jan 2003

Subedar Keshav Singh (JC-369356X), Formerly Corps of Signals—03 Jan 2003

Subedar Gurdev Singh Parmar (JC-166077A), Formerly Dogra Regt—04 Jan 2003

Subedar Madan Lal Sharma (JC-201580W), Formerly Mech Inf—02 May 2003

Subedar Darshan Lal (JC-448155A), Formerly Grenadiers—02 May 2003

Subedar Mohan Singh (JC-149258M), Formerly Arty—02 May 2003

Subedar R Gunasekharan (JC-145388X), Formerly Madras Regt—02 May 2003

Subedar Kartar Singh (JC-578439H), Formerly JAK Rif—02 May 2003

Subedar Ram Swarup (JC-236827L), Formerly Armd Corps—02 May 2003

Subedar Ram Singh (JC-184900F), Formerly Bde of the Guards—02 May 2003

Subedar Brihaspati Singh (JC-156376H), Formerly Para Regt—04 May 2003

Subedar Hanuman Singh (JC-468176X), Formerly RAJ Rif—04 May 2003

Subedar Claude Gurung (JC-193928H), Formerly 11 Gorkha Rifles—12 Jul 2003

In the rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Chuni Lal (JC-182089W), Formerly Arty—03 Jan 2002

Naib Subedar Sukhdev Raj (JC-216714F), Formerly Bde of the Guards—04 Jul 2002

Naib Subedar Mohinder Singh (JC-166614X), Formerly Armd Corps—12 Oct 2002

Naib Subedar Rajankandan (JC-136045A), Formerly APS—17 Oct 2002

Naib Subedar Biswanath Maiti (JC-661770A), Formerly ASC (MT)—03 Jan 2003

Naib Subedar Dhruw (JC-194485Y), Formerly Bde of the Guards—02 May 2003

Naib Subedar Raj Paul (JC-428483M), Formerly Punjab Regt—02 May 2003

Naib Subedar Chander Mani Prasad (JC-216692N), Formerly Bde of the Guards—03 May 2003

T.K.M. PILLAI
Under Secy.

No. 366, dated the 01st July 2004.—On demission of office by Raksha Utpadan Rajya Mantri (Shri O Rajagopal) and expiry of "winding up period", the services of Shri Sanjay Shorey, ILCS, working as Officer on Special Duty to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Shri O. Rajagopal), are placed at the disposal of the Department of Company Affairs w.e.f. 31.5.2004 (AN).

V. SARASWATHY

Under Secy.

AIR BRANCH

No. 367, dated the 07th July 2004.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted permanent commission (probation), wef 09 Jul 2001. They are granted ante date wef the dates stated against their names:—

AE (M) BRANCH

Fg Offr Shiladity Sen (26229), RN Bhatt (26216), Sumit Kumar (26228), confirmation wef 09 Jul 1999.

AE (L) BRANCH

Fg Offr Ravinder Singh (26240), confirmation wef 09 Jul 1999.

The President is pleased to confirm the undermentioned Short Service Commission Officer wef the date stated against her names:—

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr R Priyadharsini (26782), Shafali Agarwal (26783), Cheena Arora (26784), Pratibha Sharma (26785), Manika Madan (26786), Nishtha Malik (26787), Gunjan Kaushik (26788), Manisa Pati (26789)—confirmation wef 15 Dec 01.

LOGISTIC BRANCH

Fg Offr Bhawana Datta (26790), Payal Joshi (26791), Monica Vashist (26792), Sarika (26793), Sukhvinder Kaur Sudan (26794), Swati Srivastava (26795),—confirmation wef 15 Dec 01.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers wef the date stated against their names who were granted permanent commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

F(P) BRANCH

Fg Offr Suresh Chintada (26952), Manoj Gera (26953), Avinash Singh (26954), Parijat Jha (26955), Dharmendra Singh Tomar (26956), Ashish Jhorar (26957), Ronald Kevin Serrao (26958), Syamantak Roy (26959), Nitesh Kumar (26960), Yogender Dhankhar (26961), Amit Kumar (26962), Tanmay Khare (26963), P Gaurav Arjariya (26964), Pawan Beniwal (26965), Vijay Kumar Gupta (26966), Anuj Behl (26967), K

Suryanarayanan (26968), Pankaj Gupta (26969), Tushar Shamrao Chavan (26970), Anil Kumar Repswal (26971), Polineni Varun Kumar (26972), Ramangouda Shambhugouda Patila (26973), Varun Slaria (26974), Ankit Garg (26975), Amit Rana (26976), Surjeet Mann (26977), Ashutosh Vasant Athavale (26978), Saurabh Gupta (26979), Gurpreet Singh Ghuman (26980), Sandeep Tripathi (26981), Prithvi Singh Chauhan (26982), Dheeraj Gulati (26983), Beemidi Sateesh Reddy (26984), Mathala Jino Thomas (26985), Ankit Mehrotra (26986), Bikash Kumar Sahu (26987), Harpreet Singh Bhati (26988), Saurabh Kumar (26989), Rahul Ahuja (26990), Rohit Panwar (26991), Rajat Kumar Singh (26992), Shitij Vashist (26993), Hans Raj Bhatt (26994), Kashitij Awasthi (26995), Mantej Singh (26996), Ranjul Sarmah (26997), Rahul Pandey (26998), Pankaj Shirkishna Bobde (26999), T Shanmukha (27000), Rahul Singh (27001), Sukhwinder Singh Multani (27002), Akshay Raj (27003), Chandan Garg (27004), Rajendra Verma (27005), Neetesh Pathak (27006), Vikas Hooda (27007), Mohammed Kashif Khan (27008)—confirmation wef 22 Jun 2002.

Fg Offr Amit Singh (26684), Sidharth Singh Gehlot (26685), Parminder Antil (26686), Kapildeep Singh (26687), Thomson Zacharia (26688), Manish Tolani (26689), Shobhit Mishra (26690), Praveen Goel (26691), Iqbal Singh Johal (26692), Praveen Kumar Agrawal (26693), Abhiman M (26694), Naman Bundela (26695), Harkirat Singh (26696), Girish Komar (26697), Amninder Singh Punia (26698), Rohit Kumar Kadyan (26699), Vipul Mishra (26700), Abhinav Arora (26701), Aditya Dwivedi (26702), Anup Singh (26703), Vikas Rishi (26704), Tathagat Bhardwaj (26705), Shirish Bokil (26706), Ashish Gupta (26707), Vivek Sharma (26708), Ashish Tirkha (26709), Ankur Naik (26710), Deepak Kumar (26711), Pemmanda Ravi Ponnappa (26712), Sukhdeep Singh (26713), Amiyakant Patnaik (26714), Amit Sharma (26715), Anoop Singh (26716), Amit Dubey (26717), Rakesh Sharma (26718), Alok Kumar (26719), Prabhat Shukla (26720), Vikram Singh (26721), Kandarp Nath Tiwari (26722), YV Ravinder Kumar (26723), Anish Dhiman (26724), Vikram Thajagaraman (26725), Amit Kathuria (26726), Nitin Talwar (26727), Sitanshu Sinha (26728), Jaideep Singh (26729), Vishal Lakhesh (26730), Nikhil Mehrotra (26731), Amit Avinash Sathe (26732), Harseerat Singh Sidhu (26733), Ashish Sharma (26734), Shivender Singh (26735), Ashish Dhyani (26736), Shakti Singh Bisht (26737), Sidharth Priyadarshi (26738), Ashish Thakur (26739), Abhijit Prakash Lokhande (26740), Amit Srivastava (26741), Gautam Mukherjee (26742), Nitin Upadhyaya (26743),—confirmation wef 15 Dec 2001 Fg Offr Dinesh Sabharwal (26899)—Confirmation wef 18 March 2002 and Fg Offr Shishir Sukant (26951)—confirmation wef 23 Apr 02.

S SRIVASTAV

Sqn Ldr

DDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 368, dated the 01st July 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY**DEFENCE SECURITY CORPS****To be Substantive Subedar (GD)**

Nb Sub Shakti Singh (JC-205174N), 01 July 2003
 Nb Sub Desh Bhan Rai (JC-612047P), 01 July 2003
 Nb Sub Tez Pratap Yadav (JC-840530Y), 01 Jan 2004
 Nb Sub Sham Lal (JC-840580K), 01 Jan 2004
 Nb Sub Gian Singh (JC-154804X), 01 Jan 2004
 Nb Sub Pitchiah S (JC-178707Y), 01 Jan 2004
 Nb Sub Bhani Chand (JC-135829P), 01 Jan 2004
 Nb Sub Gopal Limbu (JC-148503X), 01 Jan 2004
 Nb Sub Om Parkash (JC-146782P), 01 Jan 2004
 Nb Sub Khim Singh Bohara (JC-148488N), 01 Feb 2004
 Nb Sub Kishor Ratnamani Rai (JC-163723Y), 01 Feb 2004
 Nb Sub Parladh Singh Dalpatia (JC-216655A), 01 Feb 2004
 Nb Sub Govindasamy Narayanan (JC-143460K), 01 Feb 2004
 Nb Sub K Loganathan (JC-159773M), 01 Feb 2004
 Nb Sub Dev Raj (JC-179244F), 01 Feb 2004
 Nb Sub Ashok Kumar Mishra (JC-840532K), 01 Feb 2004

To be Nb Sub (GD)

Hav Vithal Beemappa Jigaji Nagi (No. 10149281X now JC-841548F), 25 Feb 2004*
 Hav Akla Kesriar (No. 14502676A now JC-841553M), 08 Jan 2004*
 Hav Kulwant Singh (No. 10196861X now JC-841556A), 03 Mar 2004*
 *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances)
 Hav Shive Prasad (No. 8823858F now JC-841560H), 17 Mar 2004**
 **(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances)
 Hav G Radhakrishnan (No. 14298764M now JC-841578Y), 17 Mar 2004***
 *** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clerk

Hav/Clk Sogalad Chinappa Basawanappa (No. 13917442L now JC-841396L), 21 Jan 2004****
 **** (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clerk wef 21 Nov 2003 without effect on pay and allowances)
 Hav/Clk Hari Narayan Sharma (No. 12448285M now JC-841544L), 13 Jan 2004*****
 ***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clerk wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances)
 Hav/Clk Shekhar Chandra Joshi (No. 10181054L now JC-841545N), 08 Mar 2004*****
 Hav/Clk Jaibir Singh (No. 9085168P now JC-841547Y), 26 Dec 2003*****
 ***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clerk wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances)
 Hav/Clk Amarjit Singh (No. 1244166F now JC-841585P), 07 Jan 2004*****
 ***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clerk wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)
 Hav/Clk Bagh Singh (No. 2863686P now JC-841586X), 24 Mar 2004*****
 ***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clerk wef 07 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

T.K.M. PILLAI
 Under Secy.

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGR BRANCH**

No. 369, dated the 02nd July 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Sub Maj Technical

Sub Abraham KA Kunnel (JC-222008W), 16 Feb 2004/01 Jan 2004*
 Sub Parsotam Singh (JC-222508N), 01 Mar 2004
 Sub Mohinder Singh (JC-221975Y), 04 Mar 2004/01 Nov 2003*
 Sub Sathianandan K (JC-222240F), 30 Mar 2004/01 Feb 2004*
 Sub Virendra Singh (JC-222248N), 01 Apr 2004
 Sub Jagat Singh (JC-224627H), 01 Apr 2004
 Sub Kunhappan AV (JC-222249W), 01 Apr 2004
To be Sub Maj Artzn (EC)
 Sub Phulkant Tiwari (JC-750472Y), 01 Apr 2004
To be Sub Maj Clerk (GD)
 Sub Varghese Punnan (JC-224060X), 22 Mar 2004/01 Mar 2004*

To be Sub Maj DVR (MT)

Sub Kamakhya Narayan Singh (JC-749111N), 01 Mar 2004/01 Oct 2003*

Sub Tapan Kumar Behera (JC-749085X), 01 Apr 2004

To be Sub Tech

Nb Sub Parmaj Satish Bhupal (JC-754867X), 01 Jan 2004

Nb Sub Ravindranath P (JC-754767M), 10 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Sunil Kumar Sharma (JC-754769X), 13 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub R Pugazhendi (JC-754870X), 01 Mar 2004

Nb Sub Netra Pal Singh (JC-754824H), 01 Mar 2004

Nb Sub Tarachand (JC-754901M), 01 Mar 2004

Nb Sub Prasanna Kumar Panda (JC-754785P), 05 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Sudhakar Barik (JC-754821P), 09 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Naresh Kumar (JC-754890L), 10 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Vidya Bhushan Tiwari (JC-754494P), 15 Mar 2004/21 Jan 2004*

Nb Sub Om Sharan (JC-754791H), 19 Mar 2004/20 Jan 2004*

Nb Sub Pavan Kumar (JC-754872H), 21 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Kaushar Kumar Singh (JC-754828Y), 23 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Ganesh Chandra Biswas (JC-753836L), 31 Mar 2004/01 Jul 2003*

Nb Sub Adesh Kumar (JC-754524F), 02 Jan 2004/01 Dec 2004*

Nb Sub Amar Kumar Sharma (JC-754250F), 16 Jan 2004/01 Nov 2003*

Nb Sub Raghubir Singh (JC-754362F), 20 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Bachhe Lal Mandal (JC-754492K), 26 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub RPS Yadav (JC-754731N), 01 Feb 2004

Nb Sub Gajraj Singh (JC-754771P), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Arun Karmakar (JC-754892W), 09 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Hem Chand Joshi (JC-754270P), 01 Mar 2004/01 Nov 2003*

Nb Sub Hardev Singh (JC-754819X), 01 Mar 2004

Nb Sub Man Singh Rathore (JC-754826N), 01 Mar 2004

Nb Sub Dalbir Singh (JC-754830W), 01 Mar 2004

Nb Sub Kartik Chandra Ghosh (JC-754831Y), 13 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Prakash Upadhyaya (JC-754827W), 21 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub SP Pandey (JC-754803M), 05 Jan 2004/01 Dec 2003*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub TK Shinde (JC-756334N), 29 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub Ishwar Singh (JC-756329H), 29 Mar 2004/01 Nov 2003*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub LM Rao (JC-753539A), 01 Apr 2004

Nb Sub Jafar Shuja Khan (JC-753510P), 03 Apr 2004/01 Mar 2004*

To be Sub Tech AVN

Nb Sub Ram Shabd (JC-755407H), 01 Mar 2004

Nb Sub Kirti Vardhan Singh Manral (JC-755739M), 01 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub SSP Singh (JC-755408L), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Kishori Lal (JC-755409N), 23 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Mohapat Singh Rajput (JC-755612K), 01 Apr 2004

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Balakrishnan K (JC-753502W), 05 Apr 2004/01 Mar 2004*

To be Sub SKT

Nb Sub Sanjay Kumar Dhiman (JC-753869W), 21 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Girdhari (JC-753870L), 01 Mar 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Ram Sevak Prasad (JC-753996L), 07 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Utpal Kanti Das (JC-753998W), 08 Apr 2004/01 Apr 2004*

To be Sub Rec MECH

Nb Sub Krishan Ram Saran (JC-752088W), 02 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub M Babu (JC-752089Y), 08 Apr 2004/01 Mar 2004*

To be Sub DVR (MT)

Nb Sub Rajendra Kumar Bhardwaj (JC-755119W), 24 Mar 2004/1 Oct 2002*

Nb Sub Anil Kumar Singh (JC-754839L), 26 Mar 2004/01 Sep 2002*

Nb Sub Ram Prem Pandey (JC-755984P), 29 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Alamjit Singh (JC-755987H), 01 Apr 2004

To be Sub Religious Teacher

Nb Sub Rambabu Mishra (JC-749194K), 03 Jan 2004/01 Jan 2004*

To be Sub Tech

Nb Sub Gupta Narayan Singh (JC-754154M), 01 Oct 2003/01 Sep 2003*

Nb Sub Suresh Singh (JC-753923Y), 01 Oct 2003/10 Jun 2003*

Nb Sub Rati Bhan (JC-753620K), 01 Oct 2003/01 Nov 2002*

Nb Sub Parikhita Behera (JC-754148Y), 13 Oct 2003/01 Sep 2003*

Nb Sub Pyar Singh (JC-754061X), 17 Oct 2003/01 Sep 2003*

Nb Sub K Babu (JC-754182W), 02 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Garud PR (JC-754096N), 05 Nov 2003/01 Sep 2003*

Nb Sub Ramesh Babu (JC-754093A), 16 Nov 2003/01 Sep 2003*

Nb Sub SS Kadian (JC-752548L), 10 Nov 2003/25 Jun 2003*

Nb Sub Ravindranathan Pillai (JC-752654L), 13 Nov 2003/01 Jun 2002*

Nb Sub Mohan Singh (JC-753303H), 17 Nov 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub Jagjiwan Ram (JC-754227N), 24 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Dayanand (JC-754179Y), 24 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Banshi Dhar Pandey (JC-754178W), 25 Nov 2003/01 Aug 2003*

Nb Sub Santosh Kumar Awasthi (JC-754377K), 26 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Muraleedharan K (JC-753556N), 01 Dec 2003/01 Nov 2002*

Nb Sub Avadhesh Prasad (JC-754177N), 17 Dec 2003/01 Aug 2003*

Nb Sub MS Rawat (JC-750796K), 15 Dec 2003/01 Sep 2001*

Nb Sub Satyendra Rai (JC-754266M), 16 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Virulkar Suresh Bhagwan (JC-754372L), 16 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub G Surendra Natha Reddy (JC-754384A), 18 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Chander Devram (JC-754235M), 18 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Raveendran Pillai S (JC-754271K), 18 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Khwajamohammad Aftabullah (JC-754247F), 18 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Bhoodayal Singh (JC-754493M), 18 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Shiwa Ram Kushwaha (JC-754452H), 19 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub MV Krishna Reddy (JC-754388W), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Md Sarfudding (JC-754455W), 19 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub Jadhav Tanaji Pandu (JC-754265K), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Krishan Chan Viswakarama (JC-754352X), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub KV Venugopalan (JC-754369L), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Sajan G (JC-754381M), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Patole Narayan Rajaram (JC-754365P), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Sundaravadevelu S (JC-754121F), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Lal Singh (JC-754359F), 19 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub H Mohan Kumar (JC-753543Y), 19 Dec 2003/01 Oct 2002*

Nb Sub Ramesh Chander Papanai (JC-754353A), 20 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub HG Singh (JC-754269A), 20 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Rajwant Singh (JC-754256H), 20 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Jejee G (JC-754337H), 22 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Ramesh Chandra Yadav (JC-754553W), 22 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub Dhonkal Singh (JC-754378N), 22 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-754347W), 22 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Subhash Chand Sharma (JC-754358Y), 22 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Narender Kumar (JC-754459M), 23 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub I Kannan (JC-754230N), 24 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Suresh R (JC-754375Y), 24 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Siya Ram (JC-754341L), 24 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Badal Kumar Nayak (JC-754805X), 01 Jan 2004.

Nb Sub Sunil Kumar Sinha (JC-754410W), 01 Jan 2004/01 Nov 2003*

Nb Sub B.K. Mishra (JC-754759N)), 02 Jan 2004/01 Jan 2004*

To be Sub Tech AVN

Nb Sub Satpal Singh (JC-755380W), 02 Oct 2003/01 Aug 2003*.

Nb Sub Raju Sunagar (JC-755737F), 12 Nov 2003/01 Oct 2003*

To be Sub Technical

Nb Sub Mahendra Singh (JC-753792N), 07 Aug 2003/01 Nov 2002*

Nb Sub Mahesh Chandra (JC-754252M), 17 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Satendra Singh (JC-754231W), 25 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub K. S. Rao (JC-754399N), 25 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Dennis K (JC-754624M), 01 Jan 2004.

Nb Sub Indra Nath Jha (JC-754562X), 01 Jan 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Balki Madhukar Sakharan (JC-754611P), 02 Jan 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Kamla Prasad (JC-754800L), 03 Jan 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Hans Raj (JC-754693H), 06 Jan 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Anil Kumar Saxena (JC-754521N), 07 Jan 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Ram Phal Singh (JC-754447X), 19 Jan 2004/01 Nov 2003*

Nb Sub Harpal Singh (JC-754730L), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub JC Pandey (JC-754726N), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Suresh Chandra Joshi (JC-754732W), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub A.K. Sinha (JC-754729W), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Sunilgith K (JC-754719M), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Ranvir Singh (JC-754725A), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub B.K. Singh (JC-754770M), 04 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Amar Chand (JC-754720F), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Arjun Singh Rawat (JC-754794W), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Jhabbu Singh (JC-754722M), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Amar Singh (JC-755085N), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Arun Kumar Sharma (JC-754754P), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Rabindra Nath Pandey (JC-754724N), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Suresh V (JC-756795Y), 04 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Soosai Viyakulami (JC-754631H), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Sukhjinder Pal Singh (JC-754766K), 05 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-754887L), 05 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Raj Kishore Tiwari (JC-754727L), 05 Feb 2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Arvind Kumar (JC-754790A), 05 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Venunni AT (JC-753525M), 05 Feb 2004/27 Nov 2003*

Nb Sub Baljeet Singh (JC-754789L), 05 Feb 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Ramgyan Prasad (JC-754792N), 06 Feb 2004/01 Jan 2004*

- Nb Sub Surinder Kumar (JC-754357W), 06 Feb 2004/01 Nov 2003*
- Nb Sub Jai Pal Singh (JC-754627A), 07 Feb 2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Bir Bhan Singh (JC-754810H), 07 Feb 2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Nirbhay Singh (JC-754788H), 07 Feb 2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Sanwat Ram (JC-754755X), 07 Feb 2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Mohammad Shahabuddin (JC-754273H), 20 Feb 2004/01 Nov 2003*
- Nb Sub Suseelan K (JC-754793N), 11 Feb 2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Randhir Singh (JC-754885A), 12 Feb 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Santosh Kumar (JC-754083W), 06 Feb 2004/01 Aug 2003*
- Nb Sub Gani Ahmed (JC-754721K), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Nand Kishore Nautiyal (JC-754728N), 13 Feb 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub P Jeevanandan (JC-753900X), 14 Feb 2004/01 Nov 2002*
- Nb Sub Naresh Pal (JC-754409P), 21 Dec 2003/01 Nov 2003*
- Nb Sub Dilbag Singh (JC-754360W), 22 Dec 2003/01 Nov 2003*
- Nb Sub Suresh Jha (JC-754594A), 12 Jan 2004/01 Dec 2003*
- Nb Sub Rakesh Kumar (JC-754601L), 13 Jan 2004/01 Dec 2003*
- Nb Sub Ramakant Tripathi (JC-754368H), 14 Jan 2004/01 Nov 2003*
- Nb Sub Mohana Chandran G (JC-754796F), 02 Feb 2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Kailash Chand (JC-754768P), 04 Feb 2004/01 Jan 2004*
- Nb Sub Mahendra Singh (JC-754723P), 07 Feb 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Dubba Venugopal Reddy (JC-754349M), 07 Feb 2004/01 Nov 2003*
- Nb Sub Harish Chander (JC-754893Y), 01 Mar 2004.
- Nb Sub G vind Singh Nagrkoti (JC-754874N), 01 Mar 2004.
- Nb Sub Subedar Yadav (JC-754875W), 01 Mar 2004.
- Nb Sub Badiuzzama Khan (JC-754898K), 01 Mar 2004.
- Nb Sub Karan Singh (JC-754773A), 03 Mar 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub B.P. Namdeo (JC-754873L), 03 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Pakirappa Kamat (JC-754820N), 04 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Rama Shankar Choudhary (JC-754899A), 04 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Suresh Chand (JC-754883N), 05 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub P. Linga Raj (JC-754897P), 05 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Mohar Chand Jat (JC-754818P), 05 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Om Prakash (JC-754896M), 06 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Birendra Singh Verma (JC-754777W), 06 Mar 2004.
- Nb Sub Vasudevan P (JC-754779F), 07 Mar 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Kamil Kachhap (JC-754817M), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Pawan Kumar (JC-754816K), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Abhimanyu Patri (JC-754868A), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Vijay Kumar (JC-754900K), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Barshan Bir (JC-754778Y), 08 Mar 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Kalipada Sarkar (JC-754902P), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Karnail Singh (JC-754776N), 08 Mar 2004/01 Feb 2004*
- Nb Sub Sheesh Ram (JC-754895K), 09 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Dinesh Chandra Pandey (JC-753701K), 10 Mar 2004/23 Dec 2003*
- Nb Sub Dharmender Singh Yadav (JC-754196Y), 10 Mar 2004/09 Jan 2004*
- Nb Sub V Durai (JC-755049H), 10 Mar 2004/01 Mar 2004*
- Nb Sub Kutta Sambe Murty (JC-754825L), 10 Mar 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Swaroop Kumar (JC-754820P), 10 Mar 2004/
01 Mar 2004*

Nb Sub Sohan Singh Kushwah (JC-754780W), 11 Mar
2004/01 Feb 2004*

Nb Sub Satyender Pal (JC-754869H), 20 Mar 2004/01
Mar 2004*

Nb Sub Deepak Singh (JC-754800Y), 03 Mar 2004/01
Jan 2004*

Nb Sub Anil Kumar Mishra (JC-754599Y), 07 Jan 2004/
01 Dec 2003*

Nb Sub Sundaresan R (JC-753890Y), 18 Mar 2004/01
Aug 2003*

To be Sub RTGN (EC)

Nb Sub OS Sukumaran (JC-756422K), 04 Feb 2004/01
Jan 2004*

Nb Sub OM Prakash (JC-756595F), 04 Feb 2004/01
Jan 2004*

Nb Sub Balgovind (JC-756777P), 06 Feb 2004/01 Feb
2004*

Nb Sub Subhash Chand (JC-756427H), 12 Feb 2004*

To be Sub Tech (AVM)

Nb Sub Tapas Kumar Mukherjee (JC-755382F), 01 Feb
2004

Nb Sub Satpal (JC-755383X), 03 Mar 2004/01 Feb
2004*

Nb Sub S Jaya Shankar (JC-755406A), 05 Mar 2004/01
Feb 2004*

To be Sub SKT

Nb Sub Dharam Pal Kundu (JC-753868N), 12 Feb 2004/
01 Jan 2004*

Nb Sub Govind Singh (JC-753668X), 09 Mar 2004/01
Nov 2003*

Nb Sub Ram Avtar Yadav (JC-753939K), 11 Mar 2004/
01 Feb 2004*

To be Sub REC MECH

Nb Sub Rama Kant (JC-752084A), 04 Feb 2004/01 Jan
2004*

Nb Sub Verinder Chand (JC-752087N), 08 Feb 2004/01
Jan 2004*

To be Sub ARMR

Nb Sub Rajendra Singh (JC-755369X), 16 Mar 2004/01
Dec 2003*

Nb Sub Tusarkanti Biswal (JC-755817Y), 01 Mar 2004/
01 Feb 2004*

To be sub DVR (MT)

Nb Sub LC Amale (JC-754968L), 28 Jan 2004/01 Oct
2002*

Nb Sub Dilip Kumar Chetia (JC-755024W), 03 Feb
2004/01 Oct 2002*

Nb Sub Bidyut Das Laha (JC-755025Y), 27 Feb 2004/
01 Oct 2002*

Nb Sub Ramu Singh (JC-755118W), 17 Mar 2004/01
Oct 2002*

To be Sub Religious Teacher

Sub Ramesh Kumar Rai (JC-749193F), 06 Jan 2004/
01 Jan 2004*

HMT to be Nb Sub Tech B Vehicle

A. Ravichandran (No. 14587420M now JC-758803K),
03 Jan 2004/01 Jan 2004*

Ram Kumar Sharma (No. 14608695W now JC-
758725X), 19 Jan 2004/01 Jan 2004*

Anup Kumar Debnath (No. 14603213M now JC-
758668F), 12 Jan 2004/01 Oct 2003*

R Elanchezhian (No. 14599068A now JC-758716W),
07 Jan 2004/01 Dec 2003*

Rajendran T (No. 14579807A now JC-758670Y), 09
Jan 2004/01 Oct 2003*

P Kittu (No. 14593662L now JC-758806X), 01 Feb 2004

Meiyappan R (No. 14603342M now JC-758862W), 09
Feb 2004/01 Feb 2004*

Dharam Pal Singh (No. 14598051A now JC-758675X),
08 Jan 2004/01 Nov 2003*

Dilip Kumar Mallick (No. 14608821X now JC-
758747W), 17 Jan 2004/01 Jan 2004*

Shabu KC (No. 14588247A now JC-758712A), 10 Jan
2004/01 Dec 2003*

Narayan Bisoi (No. 14608656X now JC-758724P), 03
Feb 2004/01 Jan 2004*

Rakesh Kumar (No. 14594486L now JC-758807A), 03
Feb 2004/01 Feb 2004*

Patil Rajendra Kisan (No. 14603370Y now JC-758812L),
01 Feb 2004

Sunil Baran Gantait (No. 14604199X now JC-758813N),
05 Feb 2004/01 Feb 2004*

Prem Singh (No. 14602218Y now JC-758809L), 04 Feb
2004/01 Feb 2004*

Naresh Kumar (No. 14585307Y now JC-758789H), 08
Feb 2004/14 Sep 2003*

Dayaram Singh (No. 14592377A now JC-758715N), 10 Jan 2004/01 Dec 2003*

Devanand (No. 14602576K now JC-758810A), 01 Feb 2004

Tandekar Rangala Sitaram (No. 14595461L now JC-758804M), 31 Jan 2004/29 Jan 2004*

Satpal Singh (No. 14609877W now JC-758814W), 12 Mar 2004/01 Feb 2004*

Ram Prakash (No. 14558847N now JC-758669K), 10 Jan 2004/01 Oct 2003*

Santosh Kumar Satpathy (No. 14600316A now JC-758677H), 02 Feb 2004/01 Nov 2003*

Lava K R (No. 14508462P now JC-758723M), 12 Feb 2004/01 Dec 2003*

Dinesh Kumar Joshi (No. 14599524A now JC-758919A), 01 Mar 2004

Karunesh Kumar Dixit (No. 14587453X now JC-758917P), 05 Mar 2004/01 Mar 2004*

Dharmaraj Nahak (No. 14601430K now JC-758718F), 05 Jan 2004/01 Dec 2003*

Jagdish Kumar (No. 14599841F now JC-758676A), 26 Jan 2004/01 Nov 2003*

Sisira Kanti Patro (No. 14600942K now JC-758808M), 01 Feb 2004

Nareshpal Singh Malik (No. 14602658M now JC-758811H), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Tapan Kumar Paul (No. 14602433K now JC-758790X), 06 Feb 2004/01 Nov 2003*

Rajesh LK (No. 14609959Y now JC-758726A), 09 Feb 2004/01 Jan 2004*

Rajeev Singh (No. 14601281F now JC-758855A), 10 Feb 2004/01 Oct 2003*

Rajiv Verma (No. 14609221F now JC-758864F), 11 Feb 2004/01 Feb 2004*

Suresh Kumar Mishra (No. 14601307L now JC-758877Y), 20 Feb 2004/01 Feb 2004*

Madan Prasad (No. 14574741L now JC-758875N), 20 Feb 2004/15 Jan 2004*

Seenivasagan G (No. 14605422H now JC-758863Y), 23 Feb 2004/01 Feb 2004*

Pidintla Sreenivasa Rao (No. 14589674H now JC-758876W), 26 Feb 2004/01 Feb 2004*

HMT to be Nb Sub Tech Instrument

Durgesh Kumar (No. 14606648A now JC-758630X), 24 Jan 2004/01 Jan 2004*

Shaitan Ram Bishnoi (No. 14607266H now JC-758851K), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

Ramesh Chand (No. 14609900Y now JC-758848K), 04 Feb 2004/01 Dec 2003*

Pradeep Kumar (No. 14604747K now JC-758785M), 20 Jan 2004/01 Dec 2003*

HMT to be Nb Sub Tech Line

Hazari Lal (No. 14571821X now JC-758568W), 05 Jan 2004/01 Oct 2003*

Akhilesh Singh (No. 14585286N now JC-758570N), 29 Dec 2003/01 Oct 2003*

Samuel MM (No. 14579057M now JC-758774A), 27 Jan 2004/01 Oct 2003*

HMT to be Nb Sub Tech Radio

Gholapram Chandra Vasudeo (No. 14590477M now JC-758414K), 05 Jan 2004/01 Oct 2003*

Babu MS (No. 14574164K now JC-758847F), 04 Feb 2004/01 Nov 2003*

Radha Shyam Pal (No. 14597224A now JC-758505N), 14 Dec 2003/16 Oct 2003*

Kalyan Singh (No. 14590822P now JC-758506W), 27 Dec 2003/01 Oct 2003*

Jyotirmay Saha (No. 14592061N now JC-758583L), 07 Jan 2004/01 Oct 2003*

James MM (No. 14594531M now JC-758222M), 02 Feb 2004/01 Apr 2003*

Bajrang Singh (No. 14579263F now JC-758587F), 02 Jan 2004/01 Nov 2003*

Maiyariya Sarman Rajsi (No. 14571874W now JC-758586Y), 01 Jan 2004/01 Nov 2003*

KVLSV Prasad Rao (No. 14572899P now JC-758883M), 25 Feb 2004/18 Jan 2004*

Anil Kumar Mishra (No. 14598052H now JC-758895F), 01 Mar 2004

Suresh K (No. 14574537M now JC-758881F), 01 Mar 2004/15 Jan 2004*

Gambhir Singh Choudhary (No. 14597001H now JC-758894Y), 04 Mar 2004/01 Mar 2004*

Srinivasu DK (No. 14575451A now JC-758882K), 01 Mar 2004/15 Jan 2004*

Samaun Seikh (No. 14608209N now JC-758901K), 01 Mar 2004

Maiyariya Sarman Rajsi (No. 14571874W now JC-758586Y), 01 Jan 2004/01 Nov 2003*

Prakash Mahipati Patil (No. 14590481P now JC-758850F), 05 Feb 2004/01 Jan 2004*

HMT to be Nb Sub Tech Radar

Rajesh Kumar Pandey (No. 14606300L now JC-758618W), 06 Jan 2004/01 Nov 2003*

Pawan Kumar (No. 14574124H now JC-758782Y), 03 Feb 2004/23 Nov 2003*

Jugal Kishore (No. 14607112W now JC-758621W), 07 Jan 2004/01 Dec 2003*

Sunny L (No. 14606439H now JC-758928F), 11 Mar 2004/15 Jan 2004*

Sant Kumar (No. 14606242M now JC-758857L), 10 Feb 2004/01 Dec 2003*

HMT to be Nb Sub Tech Computer

Faizur Rahman Ahmed (No. 14580487H now JC-758781W), 28 Jan 2004/23 Nov 2003*

HMT to be Nb Sub Tech Gun

M Hassan (No. 14608891W now JC-758607K), 26 Jan 2004/01 Dec 2003*

Ravi P N (No. 14601092X now JC-758601H), 23 Oct 2004/01 Dec 2003*

Suresh Tegur (No. 14611716M now JC-758784K), 06 Feb 2004/01 Dec 2003*

K Kutha Lingam (No. 14602911H now JC-758611M), 05 Jan 2004/01 Dec 2003*

Prakash N (No. 14603025L now JC-758612P), 14 Jan 2004/01 Dec 2003*

Virender Kumar Agnihotri (No. 14601150W now JC-758885X), 27 Feb 2004/29 Jan 2004*

HMT to be Nb Sub Tech Armr

Karnam Nageswara Rao (No. 14609634L now JC-758778W), 07 Feb 2004/01 Oct 2003*

Gurav Pradeep Jayaram (No. 14603086H now JC-758777N), 27 Jan 2004/01 Oct 2003*

Ram Kishore (No. 14607693Y now JC-758567N), 01 Jan 2004/01 Oct 2003*

Jyoti Ranjan Samantray (No. 14607665M now JC-758546X), 17 Dec 2003/01 Oct 2003*

Ashok Kumar (No. 14594871P now JC-758779Y), 04 Feb 2004/01 Oct 2003*

Krishan Pal (No. 14608867A now JC-758853P), 09 Feb 2004/01 Oct 2003*

Hari Chand (No. 14612246Y now JC-758930Y), 12 Mar 2004/01 Feb 2004*

Dharam Bir Singh (No. 14610037H now JC-758868X), 26 Feb 2004/01 Oct 2003*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

Chhote Lal Patel (No. 14600533W now JC-758596H), 03 Feb 2004/01 Dec 2003*

Om Prakash (No. 14572489Y now JC-758444F), 23 Dec 2003/01 Aug 2003*

Dwarika Prasad Rawat (No. 14602722Y now JC-758370X), 17 Dec 2003/01 Sep 2003*

Lakhwinder Singh (No. 14600599M now JC-758786P), 20 Jan 2004/01 Jan 2004*

Shiv Kumar Prasad Tiwari (No. 14568434X now JC-758780N), 27 Jan 2004/01 Nov 2003*

Rajat Kumar Biswas (No. 14574373F now JC-758590F), 03 Feb 2004/14 Sep 2003*

Ajith Kumar NC (No. 14596937Y now JC-758783F), 01 Feb 2004/01 Dec 2003*

HMT to be Nb Sub Tech (AVF AVN)

Krittibas Garai (No. 14606464F now JC-758346F), 06 Feb 2004/20 Mar 2003*

HMT to be Nb Sub Tech (AVF INP)

Nagendra Singh (No. 14546014X now JC-758565H), 26 Dec 2003/01 Sep 2003*

HMT to be Nb Sub Tech (AVF ELE)

Raghunath Jena (No. 14563101F now JC-758448X), 12 Dec 2003/01 Oct 2003*

Hari Kumar T (No. 14573321Y now JC-758582H), 01 Jan 2004/01 Dec 2003*

Bijoy Kumar Sahu (No. 14569143L now JC-758581A), 31 Jan 2004/01 Dec 2003*

*(Gtd ante dated seniority).

REGULAR ARMY**SPECIAL LIST****To be Nb Sub (Religious Teachers)**

Dhananjai Tripathi (JC-758255X), 16 Aug 2003

S.K. KHURANA
Under Secy.

No. 370, dated the 06th July 2004.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY**PERMANENT COMMISSION****Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)**

R Gosain (IC-45131), Sigs—10 Nov 2003

M K Pal (IC-41793), Arty—17 Dec 2003

J Yadav (IC-41770), Arty—17 Dec 2003

PK Sharma (IC-40041), ASC—19 Dec 2003

Maj to be Substantive Lt Col by Selection

GS Kalra, YSM (IC-34376), Inf—01 Jun 1997

SS SINHA
Dy. Dir.
MS-8A

(AIR BRANCH)

No. 371, dated the 07th July 2004.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

SK Sofat, VM (12207), F(P)—01 Oct 2003

SK SHUKLA
Dy. Director of Personnel (Officers)-2(B)

No. 372, dated the 07th July 2004.—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

AE(M) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

R Mukati (22271), A Menakath (22272), VS Yadav (22274), AK Singha (22275), RS Rathore (22276), KS Rawat (22277), KKS Das (22278), G Singh (22279), N Thakur (22280), G Singh (22281), B Singh (22282), NM Rao (22283), 06 February 2004.

AE(L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

DS Saini (22284), SPS Randhawa (22285), PK Mohanty (22286), T Nageshwariah (22287), CK Sharma (22288), B Singh (22289), TN Ravindran (22290), B Singh (22291), AK Rath (22292), V Abraham (22293), M Dwivedi (22296), R Sharma (22297), AK Singh (22298), JK Roy (22299), 06 February 2004.

ADM BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

J Singla (23004), IH Zaidi (23006), B Malik (23007), RK Kakkar (23008), AK Sahay (23009), PK Makkar (23010), S Santosh (23011), R Marellav (23012), PK Mishra (23013), K Singh (23014), N Kohli (23015), B Joshi (23016), NK Arora (23017), DK Agarwal (23018), HS Randhawa (23019), A Veeresham (23020), A Sharma (23021), MA Rahim (23022), NVNG Rao (23023), KS Shekhawat (23024), S Gupta (23025), S Philip (23026)—18 June 2004.

EDN BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

S Majumdar (23027), VK Maithani (23029), P Panda (23030), P Basu (23031), K Singh (23032), PK Upadhyay (23033)—18 June 2004.

F(P) BRANCH

Flt Lt To be Substantive SQN LDR

Virdi MS (22904), Ajay Bhardwaj (22905), Bhadauria UKS (22906), Vijay Yadav (22909), Sanjeev Rangpal (22910)—05 March 2004.

S. SRIVASTAV
Sqn Ldr
DDPO 3(D)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 373, dated 01 July 2004.—In Ministry of Defence Notification No 44 dated 24 Dec 2003, published in Gazette of India No 04 dated 24 Jan 2004 (Part I—Section 4), under the heading 'Regular Army' sub heading 'Defence Security Corps' below 'To be Substantive Subedar (GD)':—

For—Nb Sub Faquir Chand (JC-840434K), 01 Mar 2003.

Read—Nb Sub Faqir Chand (JC-840434K), 01 Mar 2003.

T.K.M. PILLAI
Under Secy.